

Question Booklet Code

SLRC-2024

**B**

Paper : III

Question Booklet No.

Roll No.

Time Allowed : 10:30 a.m. to 1:30 p.m. (3 Hours)  
Maximum Marks : 150 marks (1 mark for each question)

Before filling the OMR Answer-Sheet, the candidate must ensure that all the pages from 1-96 are printed in order in the Question Booklet and ensure that the OMR Answer-Sheet belongs to him/her only. In case of any discrepancy, immediately inform the invigilator to replace your Question Booklet.

### IMPORTANT INSTRUCTIONS

- ✦ Do not open the Question Booklet before 10:30 a.m. in the Examination Hall.
- ✦ Read the questions carefully before marking the right answer with blue/black ballpoint pen only in the appropriate circle of the OMR Answer-Sheet, as firstly, there is provision of negative marking of 0.25 mark per Question for wrong answer as well as for selecting more than one option of a question, and secondly no extra OMR Answer-Sheet will be provided for any mistake or correction.
- ✦ In case of use of Non-Standard OMR Answer-Sheet, the candidate must properly write his/her Roll No., Question Booklet Serial No., Question Booklet Code in the space provided in the OMR Answer-Sheet by shading and by writing in alphabet and numerical on the front side as well as on the back side. Otherwise the OMR Answer-Sheet will not be evaluated.
- ✦ Candidates will have to sign twice. Once in the Attendance/Roll Sheet presented by the invigilator on duty after taking their seats in the Examination Hall, and the other, at the time of handing over their Question Booklet and OMR Answer-Sheet to the Invigilator after the completion of the Examination. Cases where a candidate has not signed while submitting the OMR Answer-Sheet and the Question Booklet, he/she shall be treated as absent.
- ✦ Candidate should clearly write his/her Roll No. in the space provided in the Question Booklet.
- ✦ The candidate should make sure that the Question Booklet No. and corresponding Question Booklet Code is properly written/shaded in the OMR Answer-Sheet by him/her. For example, in filling up the Question Booklet Code, if the candidate gets Question Booklet Code 'A', then he/she should fill up 'A' in the box provided in the OMR Answer-Sheet and also shade the circle 'A' in the OMR Answer-Sheet.
- ✦ Candidate should do all the necessary rough work on the Question Booklet in the space provided. Rough work should not be done on the OMR Answer-Sheet or on any other paper. If any rough work or overwriting is done or whitener is used on the OMR Answer-Sheet, the OMR Answer-Sheet will not be assessed.
- ✦ In case of any discrepancy or confusion in the medium/version of the questions, the English version will be treated as the authentic version.
- ✦ No candidate will be allowed to leave the Examination Centre during the examination hours.
- ✦ Any candidate found using unfair means including carrying restricted items like Mobile phone, calculator or any electronic gadget or objectionable materials, etc., which are not allowed in the examination halls/rooms shall be disqualified.

**OMR** উত্তৰপত্ৰখন পূৰ কৰাৰ আগতে পৰীক্ষার্থীয়ে নিশ্চিত হৈ ল'ব যে প্ৰশ্ন পুস্তিকাৰ **1-96** লৈ সকলো পৃষ্ঠা ক্ৰম অনুসাৰে ছপা হৈ আছে আৰু নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে **OMR** উত্তৰপত্ৰখন কেৱল তেওঁৰ বাবে। কোনো ধৰণৰ বিসঙ্গতি থাকিলে তৎক্ষণাত্ নিৰীক্ষকক অৱগত কৰি প্ৰশ্নপত্ৰখন সলনি কৰি ল'ব।

## গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশাৱলী

- ✦ পুৱা **10:30** বজাৰ আগতে প্ৰশ্নকাকতখন পৰীক্ষা কক্ষত নুখুলিব।
- ✦ **OMR** উত্তৰপত্ৰৰ যথাযথ বৃত্তটোত নীলা/ক'লা বলপইন্ট পেনেৰে শুদ্ধ উত্তৰটো চিহ্নিত কৰাৰ আগতে প্ৰশ্নটো সাৱধানে পঢ়ি লওক, কাৰণ প্ৰথমতে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ ভুল উত্তৰৰ বাবে আৰু এটাতকৈ অধিক বিকল্প উত্তৰ নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে **0.25** ঋণাত্মক নম্বৰ থাকিব আৰু দ্বিতীয়তে ভুল হ'লে বা শুদ্ধ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত কোনো **OMR** উত্তৰপত্ৰ দিয়া নহ'ব।
- ✦ **Non-Standard OMR** উত্তৰপত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষার্থীয়ে অনিবাৰ্যভাৱে তেওঁলোকৰ বোল নম্বৰ, প্ৰশ্নকাকতৰ ক্ৰমিক নম্বৰ, প্ৰশ্নকাকতৰ ক'ডটো **OMR** উত্তৰপত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ক'লা কৰিব লাগিব আৰু আগৰ ফালে আৰু পাছৰ ফালে এটা বৰ্ণমালা আৰু সংখ্যাসূচক লিখি **OMR** উত্তৰপত্ৰখন সঠিকভাৱে পূৰণ কৰিব লাগিব। অন্যথা **OMR** উত্তৰপত্ৰৰ মূল্যায়ন কৰা নহ'ব।
- ✦ পৰীক্ষার্থীসকলে নিৰীক্ষকে দিয়া উপস্থিতি/বোল পত্ৰত দুবাৰ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব, প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষাকক্ষত আসন গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আৰু দ্বিতীয়বাৰ **OMR** উত্তৰপত্ৰ আৰু প্ৰশ্নকাকতখন নিৰীক্ষকক জমা দিয়াৰ সময়ত। কোনো পৰীক্ষার্থীয়ে উপস্থিতি/বোল পত্ৰত যদি দ্বিতীয়বাৰ স্বাক্ষৰ নকৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোক অনুপস্থিত বুলি বিবেচিত হ'ব।
- ✦ পৰীক্ষার্থীয়ে প্ৰশ্নকাকতখনত দিয়া নিৰ্ধাৰিত ঠাইত তেওঁলোকৰ বোল নম্বৰ স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব।
- ✦ পৰীক্ষার্থী নিশ্চিত হোৱা উচিত যাতে প্ৰশ্নকাকতৰ নম্বৰ আৰু সংশ্লিষ্ট প্ৰশ্নকাকতৰ ক'ড নম্বৰটো **OMR** উত্তৰপত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত লিখা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, প্ৰশ্নকাকতৰ ক'ড পূৰণ কৰাৰ সময়ত, পৰীক্ষার্থীয়ে গ্ৰহণ কৰা প্ৰশ্নকাকতৰ ক'ড '**A**' থাকিলে **OMR** উত্তৰপত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত '**A**' লিখিব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট বৃত্ত '**A**'টো ক'লা কৰিব লাগিব।
- ✦ পৰীক্ষার্থীয়ে সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় খচৰা (rough) কাম প্ৰশ্নকাকতত দিয়া ঠাইতহে কৰিব পাৰিব। পৰীক্ষার্থীয়ে খচৰা (rough) কাম উত্তৰপত্ৰ বা অন্য কোনো ধৰণৰ কাগজত কৰিব নোৱাৰিব। উত্তৰপত্ৰত যদি এই খচৰা (rough) কাম পৰীক্ষার্থীয়ে কৰে অথবা বগা বং ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেনে উত্তৰপত্ৰৰ মূল্যায়ন কৰা নহ'ব।
- ✦ প্ৰশ্নৰ মাধ্যম বা সংস্কৰণত কোনো ধৰণৰ বিসঙ্গতি থাকিলে নাইবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'লে ইংৰাজী সংস্কৰণটোকেই প্ৰকৃত শুদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব।
- ✦ পৰীক্ষা চলি থকা অৱস্থাত কোনো পৰীক্ষার্থীক পৰীক্ষাকেন্দ্ৰ এৰি যাবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব।
- ✦ পৰীক্ষার্থীসকলক পৰীক্ষাৰ হাল/কক্ষত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী যেনে মোবাইল ফোন, কেলকুলেটৰ বা কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী বা আপত্তিজনক বস্তু পৰীক্ষাকক্ষলৈ নিয়াত অনুমতি দিয়া নহ'ব। যদি কোনো পৰীক্ষার্থীয়ে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে বা ওপৰত উল্লেখ কৰা পৰীক্ষাৰ নিয়মসমূহ উলংঘা কৰে, তেন্তে তেওঁক অযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব।

**OMR** উত্তরপত্রটি পূরণ করবার পূর্বে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে প্রশ্নপত্রে **1-96** পর্যন্ত সমস্ত পৃষ্ঠাগুলি ক্রমানুসারে মুদ্রিত হয়েছে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে **OMR** উত্তরপত্রটি কেবল তাঁর জন্য। কোনো প্রকার বিসঙ্গতি থাকলে অবিলম্বে নিরীক্ষককে অবগত করিয়ে প্রশ্নপত্রটি বদল করে নেবেন।

### গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী

- ✦ সকাল **10:30** ঘটিকার পূর্বে প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষা কক্ষতে খুলবেন না।
- ✦ **OMR** উত্তরপত্রের যথাযথ বৃত্তটিতে নীল/কালো বলপয়েন্ট পেন দ্বারা শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করবার পূর্বে প্রশ্নটি সাবধানে পড়ে নেবেন, কারণ প্রথমত প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য এবং একের অধিক বিকল্প উত্তর নির্বাচন করার জন্য **0-25** ঋণাত্মক নম্বর থাকবে এবং দ্বিতীয়ত ভুল হলে বা শুদ্ধ করবার জন্য কোনো অতিরিক্ত **OMR** উত্তরপত্র দেওয়া হবে না।
- ✦ **Non-Standard OMR** উত্তরপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই তাঁদের রোল নম্বর, প্রশ্নপুস্তিকার ক্রমিক নম্বর, প্রশ্নপুস্তিকার কোডটি **OMR** উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে কালো করতে হবে এবং সামনের দিকে ও পেছনের দিকে একটি বর্ণমালা এবং সংখ্যাসূচক লিখে **OMR** উত্তরপত্রটি সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। অন্যথা **OMR** উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করা হবে না।
- ✦ পরীক্ষার্থীদিগকে নিরীক্ষকের দেওয়া উপস্থিতি/রোল পত্রে দুবার স্বাক্ষর করতে হবে, প্রথমবার তাঁদের পরীক্ষা কক্ষে আসন গ্রহণ করার সময়ে এবং দ্বিতীয়বার **OMR** উত্তরপত্র এবং প্রশ্নপত্রটি নিরীক্ষককে জমা দেওয়ার সময়ে। কোনো পরীক্ষার্থী উপস্থিতি/রোল পত্রে যদি দ্বিতীয়বার স্বাক্ষর না করেন, তাহলে তাঁকে অনুপস্থিত বলে গণ্য করা হবে।
- ✦ পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্রে দেওয়া নির্দিষ্ট স্থানে পরিষ্কারভাবে তাঁদের রোল নম্বর অবশ্যই লিখতে হবে।
- ✦ পরীক্ষার্থী নিশ্চিত হওয়া উচিত যাতে প্রশ্নপত্রের নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্রের কোড নম্বরটি **OMR** উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রশ্নপত্রের কোড পূরণ করার সময়, পরীক্ষার্থী গ্রহণ করা প্রশ্নপত্রের কোড 'A' থাকলে **OMR** উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে 'A' লিখতে হবে এবং নির্দিষ্ট বৃত্ত 'A'টি কালো করতে হবে।
- ✦ পরীক্ষার্থী সকল ধরনের প্রয়োজনীয় খসড়া (rough) কাজ প্রশ্নপত্রে দেওয়া স্থানে করতে পারবেন। পরীক্ষার্থী খসড়া (rough) কাজ উত্তরপত্র বা অন্য কোনো ধরনের কাগজে করতে পারবেন না। যদি পরীক্ষার্থী এই খসড়া (rough) কাজ উত্তরপত্রে করেন বা সাদা রঙ ব্যবহার করেন, তবে সেই উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করা হবে না।
- ✦ প্রশ্নের মাধ্যম বা সংস্করণে কোনো ধরনের অসঙ্গতি হলে অথবা বোঝার অসুবিধা হলে ইংরাজী সংস্করণটিকেই প্রকৃত শুদ্ধ বলে গণ্য করা হবে।
- ✦ পরীক্ষা চলাকালীন কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
- ✦ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার হল/কক্ষে কোনো নিষিদ্ধ সামগ্রী যেমন মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর এবং কোনো বৈদ্যুতিক গ্যাজেট বা আপত্তিকর সামগ্রী ইত্যাদি বহন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। পরীক্ষার্থীদের যদি কোনো অসং উপায় অবলম্বন করতে দেখা যায় বা তাঁরা যদি উপরে উল্লিখিত পরীক্ষার নিয়মসমূহ উলংঘন করেন, তবে তাঁদের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।

**OMR** फिन बिलाइखौ आबुं खालामनायनि सिगांनो, बिजाथिया बेखौ फोथायथि होनांगोन, **1-96** सिम गासिबो बिलाइफ्रा सोंथि बिजाबाव फारियै सेबखानाय दं आरो **OMR** फिन बिलाइया गावनि थाखायल' बे बाथाखौबो फोथायथि होनांगोन। माबाफोर बेले-बेजे मोनोब्ला सोंथि बिजाबखौ सोलायना होनो थाखाय नायदिंगिरिनो थाबैनो मिथिहो।

## गोनां बिथोन

- ✦ फुंनि **10:30** रिंगानि सिगां सोंथि बिलाइखौ आनजाद ख'थायाव खेवनो नाडा।
- ✦ **OMR** फिन बिलाइनि होखानाय बेखनाव निला/गोसोम बलपइन्ट कलमजों गेबें फिनखौ सिन होनायनि सिगांनो सोंथिखौ मोजाडै फरायनानै लाग्रो, मानोना सेथियाव: मोनफ्रोमबो सोंथिनि गोरोन्थि फिननि थाखाय आरो मोनसेनि बांसिन फिन सायख'नायनि थाखाय **0.25** दानख' नम्बर थागोन आरो नैथियाव: गोरोन्थि जायोब्ला एबा गेबें खालामफिननो थाखाय मोनबो उफेरा फिन बिलाइ होनाय जानाय नडा।
- ✦ **Non-standard OMR** फिन बिलाइ बाहायनायनि बिथिडाव बिजाथिया रोखायै गावनि रल नम्बर, सोंथि बिलाइनि फारि नं, सोंथि बिलाइनि कडखौ **OMR** फिन बिलाइनि होखानाय जायगायाव गोसोम खालामना होनांगोन आरो सिगांथि आरो उनथिंजाय मोनसे हांखो आरो बिसान (अनजिमा) लिरनानै गेबेडै आबुं खालामनो नांगोन। नडाब्ला **OMR** फिन बिलाइखौ आनजाद नायनाय जानाय नडा।
- ✦ बिजाथिफोरा खेबनै सहि होनो नांगोन। खेबसे आनजाद खथायाव हाबनानै गावबा गाव जायगायाव जखानायनि उनाव बिबानाव थानाय नायदिंगिरिया होनाय नुजाथिनाय/रल बिलाइयाव, आरो गुबुन मोनसेया, आनजाद होखानायनि उनाव नायदिंगिरिनो सोंथि बिलाइ आरो **OMR** फिन बिलाइखौ गथायनाय समाव। **OMR** फिन बिलाइ आरो सोंथि बिलाइखौ गथायनाय समाव बिजाथिया सहि होआखेब्ला बियो आनजादाव जवाखैमोन होननानै गनाय जागोन।
- ✦ सोंथि बिलाइयाव होनाय थिखानाय जायगायाव बिजाथिया रोखायै गावनि रल नम्बरखौ लिरनांगोन।
- ✦ सोंथि बिलाइनि नम्बर आरो सोंथि बिलाइनि कड नम्बरखौ **OMR** फिन बिलाइनि होखानाय जायगायाव लिरनायनि फारसे बिजाथिया रोखा जानाया गोनां। बिदिन्थि बादियै, सोंथि बिलाइनि कड आबुं खालामनाय समाव बिजाथिया मोननाय सोंथि बिलाइनि कडा 'A' जायोब्ला **OMR** फिन बिलाइनि होखानाय जायगायाव 'A' लिरनो नांगोन आरो होखानाय बेखन 'A' खौ गोसोम खालामनो नांगोन।
- ✦ बिजाथिफोरा गासिबो रोखोमनि नांगौ जानाय खालामना नायनायनाय (rough) खामानिखौ सोंथि बिलाइनि होखानाय जायगायावसो खालामनो नांगोन। बिजाथिफोरा खालामना नायनायनाय खामानिखौ फिन बिलाइ एबा बिदि गुबुन रोखोमनि लेखा बिलाइयाव खालामनो मोननाय नडा। फिन बिलाइयाव बे खालामना नायनायनाय (rough) खामानिखौ बिजाथिया खालामोब्ला एबा लिरला लिरसि (overwriting) खालामोब्ला एबा गुफुर गाबखौ (whitener) **OMR** फिन बिलाइयाव फोनोब्ला बै **OMR** फिन बिलाइखौ नायनाय जानाय नडा।
- ✦ सोंथि बिलाइनि बिजों एबा फोसावनायाव माबाफोर गोरोन्थि थायोब्ला एबा बुजि मोननायाव जेंना जायोब्ला इंराजि रावजों फोसावनाय सोंथि बिलाइखौनो गेबें होननानै गनायना लानाय जागोन।
- ✦ आनजाद सोलिफुबाय थानाय समाव रावबो बिजाथिखौ आनजादथिलि गारना थानायनि गनायथि होनाय जानाय नडा।
- ✦ आनजादथिलि/खथायाव सोरबा बिजाथिफ्रा हेंथा गोनां मुवा जैरै मबाइ फन, केलकुलेटर एबा बिदि रोखोमनि माबाफोर इलेक्ट्रनिक मुवा बाहायोब्ला विनि बिजाथिखौ दानना होनाय जागोन।

**OMR** उत्तर-पत्रक को भरने से पहले परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका में 1-96 तक सभी पृष्ठ क्रमानुसार मुद्रित हैं तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि **OMR** उत्तर-पत्रक केवल उनसे ही संबंधित है। किसी भी विसंगति की स्थिति में अपनी प्रश्न-पुस्तिका बदलने हेतु तत्काल निरीक्षक को सूचित करें।

## महत्त्वपूर्ण निर्देश

- ♦ प्रातः 10:30 बजे से पहले परीक्षा-कक्ष में प्रश्न-पुस्तिका न खोलें।
- ♦ **OMR** उत्तर-पत्रक के उपयुक्त वृत्त में सही उत्तर को नीले/काले बॉल-प्वाइंट पेन से चिह्नित करने से पूर्व सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, कारण प्रथमतः गलत उत्तर और एक ही प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प के चयन करने पर 0.25 नकारात्मक अंक का प्रावधान है और द्वितीयतः किसी भी प्रकार की गलती अथवा सुधार के लिए अतिरिक्त **OMR** उत्तर-पत्रक नहीं दिया जाएगा।
- ♦ गैर-मानक **OMR** उत्तर-पत्रक के व्यवहार के मामले में, परीक्षार्थी को अनिवार्यतः अपना रोल नंबर, प्रश्न-पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न-पुस्तिका कोड **OMR** उत्तर-पत्रक में दिये गये स्थान में छायांकित करना होगा तथा आगे और पीछे की तरफ एक वर्णमाला और संख्यात्मक रूप **OMR** उत्तर-पत्रक में लिखना होगा। अन्यथा **OMR** उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- ♦ परीक्षार्थियों को निरीक्षक द्वारा दी गयी उपस्थिति/रोल शीट पर दो बार हस्ताक्षर करने होंगे। पहली बार जब परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष में अपनी सीट पर बैठ जाएँ, तथा दूसरी बार निरीक्षक को प्रश्न-पुस्तिका तथा **OMR** उत्तर-पत्रक सौंपने के समय। अगर किसी परीक्षार्थी ने **OMR** उत्तर-पत्रक तथा प्रश्न-पुस्तिका सौंपते वक्त हस्ताक्षर नहीं किया, तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा।
- ♦ प्रश्न-पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान पर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर स्वच्छ रूप में लिखें।
- ♦ परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा लिखी गयी प्रश्न-पुस्तिका संख्या तथा संगत प्रश्न-पुस्तिका कोड **OMR** उत्तर-पत्रक में सही है। उदाहरण स्वरूप, प्रश्न-पुस्तिका को भरते समय, यदि परीक्षार्थी को प्रश्न-पुस्तिका 'A' मिले, तो **OMR** उत्तर-पत्रक में दिये गये बॉक्स में 'A' लिखना होगा तथा **OMR** उत्तर-पत्रक में 'A' को छायांकित करना होगा।
- ♦ परीक्षार्थी सभी तरह का रफ़ (rough) कार्य प्रश्न-पुस्तिका में दिये गये स्थान पर कर सकेंगे। रफ़ कार्य **OMR** उत्तर-पत्रक या अन्य किसी तरह के कागज पर नहीं कर सकेंगे। यदि कोई रफ़ कार्य या ओवरराइटिंग **OMR** उत्तर-पत्रक पर किया गया या विरंजक का प्रयोग किया गया, तो **OMR** उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- ♦ प्रश्नों के माध्यम/संस्करण में किसी भी विसंगति या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
- ♦ परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं है।
- ♦ यदि कोई परीक्षार्थी गलत तरीका अपनाते हुए पाया जाता है अर्थात् प्रतिबंधित सामग्री रखना जैसे मोबाइल फोन, कैल्कुलेटर या किसी तरह की वैद्युतिक सामग्री अथवा आपत्तिजनक वस्तु आदि, जिसकी परीक्षा हॉल/कक्ष में अनुमति नहीं है, तो उसे अयोग्य माना जाएगा।

1. When three times of a given number is subtracted from the square of the number, the result is the number itself. The number is
- (A) 4 (B) 2  
(C) - 2 (D) - 4
1. কোনো এক সংখ্যাৰ বৰ্গমানৰ পৰা সংখ্যাটোৰ তিনি গুণ বিয়োগ কৰিলে পুনৰ সেই সংখ্যাটোৱেই পোৱা যায়। সংখ্যাটো হৈছে
- (A) 4 (B) 2  
(C) - 2 (D) - 4
1. একটি প্রদত্ত সংখ্যাৰ তিনি গুণ সংখ্যাটিৰ বৰ্গ থেকে বিয়োগ কৰা হলে পৰিণাম হিঁসেবে পুনৰায় সংখ্যাটিই পাওয়া যায়। সংখ্যাটি হল
- (A) 4 (B) 2  
(C) - 2 (D) - 4
1. जुदि मोनसे अनजिमानि बर्गनिफ्राय बिनि सानजाबगाथामखौ दानख'यो, अब्ला फिना बे अनजिमायानो जायो। बियो जाबाय
- (A) 4 (B) 2  
(C) - 2 (D) - 4
1. जब किसी संख्या का तीन गुना उस संख्या के वर्ग से घटा दिया जाता है, तो परिणाम वही संख्या होती है। वह संख्या है
- (A) 4 (B) 2  
(C) - 2 (D) - 4

---

2. In Roman numeral, XCI represents the decimal number

- (A) 41 (B) 21  
(C) 91 (D) 111

2. ৰোমান সংখ্যা XCI য়ে বুজোৱা দশমিক সংখ্যাটো হৈছে

- (A) 41 (B) 21  
(C) 91 (D) 111

---

**SPACE FOR ROUGH WORK**

---

2. रोमान संख्या XCI द्वारा चिह्नित करा दशमिक संख्याटि हल
- (A) 41 (B) 21  
(C) 91 (D) 111
2. रमान हांखोआव XCI नि दशमिक अनजिमाया जायो
- (A) 41 (B) 21  
(C) 91 (D) 111
2. रोमन अंकों में XCI जिस दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वह है
- (A) 41 (B) 21  
(C) 91 (D) 111

- 
3. A ladder of length 13 m is leaning against a vertical wall with the upper end at the height of 5 m. The horizontal distance between the foot of the wall and the lower end of the ladder is
- (A) 9 m (B) 5 m  
(C) 11 m (D) 12 m
3. 13 मि. दैर्घ्ये जखला एडाल उलम्न देवाल एखनत हेलान दि आछे आरु इयाब ओपबब मूबटो 5 मि. उच्चतात आछे। देवालखनब पादबिन्दु आरु जखलाब तलब मूबब माजब अनुभूमिक दूरत्व हैछे
- (A) 9 मि. (B) 5 मि.  
(C) 11 मि. (D) 12 मि.
3. 13 मि. दैर्घ्येरे एकटि मई एकटि उलम्न देओयालेर साथे एमनभावे हेले आछे ये तार उपरेर प्राप्त 5 मि. उच्चताय अवस्थित। देओयालेर पाददेश एवं मईयेर नीचेर प्राप्तरे मध्ये आनुभूमिक दूरत्व हल
- (A) 9 मि. (B) 5 मि.  
(C) 11 मि. (D) 12 मि.

---

**SPACE FOR ROUGH WORK**

---

3. 13 मि. गोलाव जांख्ला गंसेखौ थोंगोर बेरायाव गोजौथिं 5 मि. जौथाइयाव सोनार होना नै दोनदों। बेरानि थालानिक्राय हास्रेंडै जांख्लानि गाहायथिंनि गुदिसिम जानथाइया बेसे?
- (A) 9 मि. (B) 5 मि.  
(C) 11 मि. (D) 12 मि.
3. 13 मी० लम्बी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर झुकी हुई है, जिसका ऊपरी सिरा 5 मी० की ऊँचाई पर है। दीवार के निचले सिरे और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की क्षैतिज दूरी है
- (A) 9 मी० (B) 5 मी०  
(C) 11 मी० (D) 12 मी०

- 
4. The median of the sequence of numbers 2, -1, 3, 1, -2, 5, 6 is
- (A) 1 (B) -1  
(C) 2 (D) 3
4. 2, -1, 3, 1, -2, 5, 6 संख्याक्रमटोब मध्यामा ह्येछे
- (A) 1 (B) -1  
(C) 2 (D) 3
4. संख्या अनुक्रम 2, -1, 3, 1, -2, 5, 6 -एर मध्यामा हल
- (A) 1 (B) -1  
(C) 2 (D) 3
4. अनजिमा फारि 2, -1, 3, 1, -2, 5, 6 नि गेजेरमाया
- (A) 1 (B) -1  
(C) 2 (D) 3
4. संख्याओं के अनुक्रम 2, -1, 3, 1, -2, 5, 6 का माध्यक है
- (A) 1 (B) -1  
(C) 2 (D) 3

---

---

SPACE FOR ROUGH WORK



5. A person moves along a path such that he is always away from a given point by 7 m. After moving for some time, he again reaches his starting point. The approximate distance the person moved during the time is
- (A) 22 m (B) 44 m  
(C) 122 m (D) 144 m
5. এজন মানুহে এক প্রদত্ত বিন্দুৰ পৰা সদায়ে 7 মি. দূৰত্ব বজাই ৰাখি এক নিৰ্দিষ্ট পথেৰে গতি কৰে। কিছু সময় এনেদৰে গতি কৰি তেওঁ পুনৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণী স্থানত উপনীত হয়গৈ। এই সময়ছোৱাত তেওঁ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ আসন্ন মান হৈছে
- (A) 22 মি. (B) 44 মি.  
(C) 122 মি. (D) 144 মি.
5. একজন ব্যক্তি এমনি একাটি পথ ধৰে চলে যে সে সৰ্বদা একাটি নিৰ্দিষ্ট বিন্দু থেকে 7 মি. দূৰত্ব বজায় ৰাখে। কিছুক্ষণ চলাৰ পর সে আবার তার প্রারম্ভিক বিন্দুতে পৌঁছায়। এই সময়ের ভেতরে ব্যক্তিটির অতিক্রমণ কৰা আনুমানিক দূৰত্ব হল
- (A) 22 মি. (B) 44 মি.  
(C) 122 মি. (D) 144 মি.
5. सासे मानसिया दोसे लामार्जो औरैबायदि थाबाय लाडो जे बियो मोनसे बिंदुनिफ्राय जेब्लाबो 7 मि. गोजानाव थायो। दसे सम थाबायनायनि उनाव बियो गाव थाबायजेन्नाय जायगायाव सफैफिनो। बे मानसिया सरासन्ना बेसे गोजान थाबायखो?
- (A) 22 मि. (B) 44 मि.  
(C) 122 मि. (D) 144 मि.
5. एक व्यक्ति एक पथ पर इस प्रकार चलता है कि वह दिए गए एक बिन्दु से हमेशा 7 मी० दूर रहता है। कुछ देर चलने के बाद वह पुनः अपने प्रारम्भिक बिन्दु पर पहुँच जाता है। उस समय के दौरान व्यक्ति द्वारा तय की गयी अनुमानित दूरी है
- (A) 22 मी० (B) 44 मी०  
(C) 122 मी० (D) 144 मी०

---



---

**SPACE FOR ROUGH WORK**

6. A cube of volume  $1 \text{ m}^3$  is cut equally into smaller cubes of volume  $1 \text{ cm}^3$  each. The number of smaller cubes found is
- (A) 10000 (B) 100000  
(C) 1000 (D) 1000000
6. 1 ঘন মি. আয়তনৰ ঘনক এটাৰ পৰা 1 ঘন চে. মি. আয়তনৰ কিছুমান সৰু ঘনক সমানকৈ কাটি উলিওৱা হ'ল। প্ৰাপ্ত সৰু ঘনকৰ সংখ্যা হৈছে
- (A) 10000 (B) 100000  
(C) 1000 (D) 1000000
6. 1 ঘন মি. আয়তনৰ একটা ঘনককে কয়েকটি সমান আকাৰৰ ক্ষুদ্ৰতৰ 1 ঘন সে. মি. আয়তনৰ ঘনকে বিভক্ত কৰা হয়। প্ৰাপ্ত ক্ষুদ্ৰ ঘনকগুলিৰ সংখ্যা হ'ল
- (A) 10000 (B) 100000  
(C) 1000 (D) 1000000
6. 1 ঘন মি. রোজাগাসৈ গোনাং গংসে ঘনকনিফ্ৰায় 1 ঘন সে. মি. রোজাগাসৈ জানায় ফিসাসিন ঘনকফোর হায়োব্লা, মোনবেসে ফিসাসিন ঘনক ঔঁখ্ৰাগোন?
- (A) 10000 (B) 100000  
(C) 1000 (D) 1000000
6. 1 ঘन मी० आयतन वाले एक घन को 1 घन से० मी० आयतन वाले छोटे घनों में समान रूप से काटा जाता है। पाए गए छोटे घनों की संख्या है
- (A) 10000 (B) 100000  
(C) 1000 (D) 1000000

7. The smallest positive integer that is simultaneously divisible by 6, 8 and 12 is
- (A) 24 (B) 18  
(C) 48 (D) 36
7. 6, 8 আৰু 12 ৰে একে সময়তে বিভাজ্য ন্যূনতম ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাটো হ'ল
- (A) 24 (B) 18  
(C) 48 (D) 36

---

**SPACE FOR ROUGH WORK**

---

7. न्यूनतम धनात्मक पूर्णसंख्या या एकई साथे 6, 8 एवं 12 द्वारा विभाज्य, सेटि हल
- (A) 24 (B) 18  
(C) 48 (D) 36
7. बयनिखुइ दुयसिन दाजाबथाइ रग' अनजिमा जायखौ 6, 8 आरो 12 जों रानजायो, बेयो जादों
- (A) 24 (B) 18  
(C) 48 (D) 36
7. सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, जो एक साथ 6, 8 और 12 से विभाज्य है, है
- (A) 24 (B) 18  
(C) 48 (D) 36

- 
8. The difference between the smallest 3-digit even natural number and the largest 2-digit even natural number is
- (A) 1 (B) 2  
(C) 3 (D) 4
8. 3-अंकयुक्त आर्टाईतकै सक युग्म स्वाभाविक संख्या आरु 2-अंकयुक्त सर्वोच्च युग्म स्वाभाविक संख्याब पार्थक्य हैछे
- (A) 1 (B) 2  
(C) 3 (D) 4
8. 3-अङ्केर न्मुद्रतम स्वाभाविक युग्म संख्या एवं 2-अङ्केर बृहत्तम स्वाभाविक युग्म संख्यार मध्ये पार्थक्य हल
- (A) 1 (B) 2  
(C) 3 (D) 4
8. दुयसिन 3-सानजिमागोनां मिथिगा जरा अनजिमा आरो देरसिन 2-सानजिमागोनां मिथिगा बेज'रा अनजिमानि गेजेराव थानाय फारागा
- (A) 1 (B) 2  
(C) 3 (D) 4

---

SPACE FOR ROUGH WORK

---

8. 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक सम संख्या के बीच का अंतर है
- (A) 1 (B) 2  
(C) 3 (D) 4

9. A number was increased by 40% and thereafter decreased by 40%. The net change in the number in percentage is

- (A) 16% increase (B) 16% decrease  
(C) 32% decrease (D) No change

9. কোনো এটা সংখ্যক প্রথমে 40% বৃদ্ধি করা হ'ল আৰু তাৰ পিছত 40% হ্রাস করা হ'ল। শতাংশ পৰিমাণত সংখ্যাটোৰ মুঠ পৰিৱৰ্তন হৈছে

- (A) 16% বৃদ্ধি (B) 16% হ্রাস  
(C) 32% হ্রাস (D) অপৰিৱৰ্তিত

9. একটি সংখ্যাকে 40% বৃদ্ধি করা হয় এবং পরবর্তীতে 40% হ্রাস করা হয়। শতাংশের নিরিখে সংখ্যাটির মোট পরিবর্তন হল

- (A) 16% বৃদ্ধি (B) 16% হ্রাস  
(C) 32% হ্রাস (D) অপৰিৱৰ্তিত

9. बबेबा मोनसे बिसानखौ सिगां 40% बांहोनाय जायो आरो उनाव 40% खमायनाय जायो। जौखोन्दोआव बे बिसाननि आबुं सोलायनाया जादों

- (A) 16% बांदों (B) 16% खम जादों  
(C) 32% खम जादों (D) जेबो सोलायाखै

9. एक संख्या में 40% की वृद्धि की गई और उसके बाद 40% घटा दी गई। संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत है

- (A) 16% की वृद्धि (B) 16% की कमी  
(C) 32% की कमी (D) कोई बदलाव नहीं

**SPACE FOR ROUGH WORK**

10. If the average age of A, B and C is 22 years and the average age of B and C is 25 years, then find the age of A after 9 years from now.

- (A) 25 years (B) 35 years  
(C) 50 years (D) 45 years

10. যদি A, B আৰু C ৰ গড় বয়স 22 বছৰ আৰু B আৰু C ৰ গড় বয়স 25 বছৰ, তেন্তে এতিয়াৰ পৰা 9 বছৰৰ পিছত A ৰ বয়স হ'ব

- (A) 25 বছৰ (B) 35 বছৰ  
(C) 50 বছৰ (D) 45 বছৰ

10. যদি A, B ও C-এৰ গড় বয়স 22 বছৰ এবং B ও C-এৰ গড় বয়স 25 বছৰ হয়, তৰে এখন থেকে 9 বছৰ পর A-এৰ বয়স কত হবে, নির্ণয় করুন।

- (A) 25 বছৰ (B) 35 বছৰ  
(C) 50 বছৰ (D) 45 বছৰ

10. जुदि A, B आरु C नि गड़ बैसुआ 22 बूसुआ आरु B आरु C नि गड़ बैसुआ 25 बूसुआ, 9 बूसुआ उनाव A नि बैसुआ बेसेबां जागुन?

- (A) 25 बूसुआ (B) 35 बूसुआ  
(C) 50 बूसुआ (D) 45 बूसुआ

10. यदि A, B और C की औसत आयु 22 वर्ष तथा B और C की औसत आयु 25 वर्ष है, तो अब से 9 साल बाद A की आयु ज्ञात कीजिए।

- (A) 25 वर्ष (B) 35 वर्ष  
(C) 50 वर्ष (D) 45 वर्ष

11. The smallest among  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{3}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{4}}$  and  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  is

- (A)  $\sqrt{\frac{1}{2}}$  (B)  $\sqrt{\frac{1}{3}}$   
(C)  $\sqrt{\frac{1}{4}}$  (D)  $\sqrt{\frac{2}{3}}$

SPACE FOR ROUGH WORK

11.  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{3}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{4}}$  আৰু  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  ত ন্যূনতম মানৰ সংখ্যাটো হৈছে

(A)  $\sqrt{\frac{1}{2}}$

(B)  $\sqrt{\frac{1}{3}}$

(C)  $\sqrt{\frac{1}{4}}$

(D)  $\sqrt{\frac{2}{3}}$

11.  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{3}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{4}}$  এবং  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  -এৰ মध्ये ক্ষুদ্রतम संख्याটি হল

(A)  $\sqrt{\frac{1}{2}}$

(B)  $\sqrt{\frac{1}{3}}$

(C)  $\sqrt{\frac{1}{4}}$

(D)  $\sqrt{\frac{2}{3}}$

11.  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{3}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{4}}$  आरु  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  नि गेजेराव बयनिखुइ दुयसिना

(A)  $\sqrt{\frac{1}{2}}$

(B)  $\sqrt{\frac{1}{3}}$

(C)  $\sqrt{\frac{1}{4}}$

(D)  $\sqrt{\frac{2}{3}}$

11.  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{3}}$ ,  $\sqrt{\frac{1}{4}}$  और  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  में सबसे छोटा है

(A)  $\sqrt{\frac{1}{2}}$

(B)  $\sqrt{\frac{1}{3}}$

(C)  $\sqrt{\frac{1}{4}}$

(D)  $\sqrt{\frac{2}{3}}$

---

---

SPACE FOR ROUGH WORK

12. If  $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{7}$ , then  $\frac{x+y+z}{z}$  is equal to

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

12. যদি  $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{7}$ , তেন্তে  $\frac{x+y+z}{z}$  ৰ মান হ'ব

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

12. যদি  $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{7}$ , তাহলে  $\frac{x+y+z}{z}$  -এৰ সমান

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

12. जुदि  $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{7}$ , अब्ला  $\frac{x+y+z}{z}$  आ समान जागोन

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

12. यदि  $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{7}$ , तो  $\frac{x+y+z}{z}$  का मान समान है

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

---

---

SPACE FOR ROUGH WORK

13. Two numbers are in the ratio 2 : 3 and the product of their HCF and LCM is 96. The sum of the two numbers is
- (A) 18 (B) 20  
(C) 22 (D) 24
13. দুটা সংখ্যা 2 : 3 অনুপাতত আছে আৰু সিহঁতৰ গ.সা.উ. আৰু ল.সা.গু.-ৰ পূৰণফল 96. সংখ্যা দুটাৰ যোগফল হৈছে
- (A) 18 (B) 20  
(C) 22 (D) 24
13. দুটি সংখ্যাৰ অনুপাত 2 : 3 এবং তাদের গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু.-ৰ গুণফল 96. সংখ্যা দুটির যোগফল হল
- (A) 18 (B) 20  
(C) 22 (D) 24
13. मोननै बिसाननि रुजुजखाया 2 : 3 आरो बिसोरनि दे.आ.सा. आरो दु.आ.सा.नि सानजाबगासैया 96. बे बिसान मोननैनि सानजाबगासैया जाबाय
- (A) 18 (B) 20  
(C) 22 (D) 24
13. दो संख्याएँ 2 : 3 अनुपात में हैं और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्त्य का गुणनफल 96 है। दोनों संख्याओं का योग है
- (A) 18 (B) 20  
(C) 22 (D) 24

- 
14. The value of  $\sqrt[3]{8^2}$  is
- (A) 1 (B) 3  
(C) 2 (D) 4
14.  $\sqrt[3]{8^2}$  ৰ মান হ'ব
- (A) 1 (B) 3  
(C) 2 (D) 4

---

SPACE FOR ROUGH WORK



14.  $\sqrt[3]{8^2}$ -এৰ মান

- (A) 1 (B) 3  
(C) 2 (D) 4

14.  $\sqrt[3]{8^2}$  নি মানা

- (A) 1 (B) 3  
(C) 2 (D) 4

14.  $\sqrt[3]{8^2}$  কা মান হৈ

- (A) 1 (B) 3  
(C) 2 (D) 4

15. A certain amount invested in a firm would become double at the end of one month, but it deducts an amount of ₹ 120 on every doubling. A person invests an amount of ₹ 105 and continues for 3 months without investing any additional amount. At the end of 3 months, his net income is

- (A) ₹ 55 (B) ₹ 0  
(C) ₹ 270 (D) ₹ 45

15. কোনো এক ব্যৱসায় প্রতিষ্ঠানত ধন বিনিয়োগ কৰিলে এমাহৰ অন্তত এই ধন দুগুণ পৰিমাণৰ হয়গৈ, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটোৱে প্রতিবাৰ ধন দুগুণ হ'লেই ₹ 120 কাটি ৰাখে। এজন মানুহে এই প্রতিষ্ঠানত ₹ 105 বিনিয়োগ কৰে আৰু কোনো অধিক বিনিয়োগ নকৰাকৈ ইয়াক 3 মাহলৈ চলাই নিয়ে। 3 মাহৰ অন্তত মানুহজনৰ মুঠ আয়

- (A) ₹ 55 (B) ₹ 0  
(C) ₹ 270 (D) ₹ 45

15. একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলে এক মাসের শেষে দ্বিগুণ হয়ে যায় কিন্তু প্রতি দ্বিগুণে ₹ 120 কেটে নেওয়া হয়। একজন ব্যক্তি ₹ 105 বিনিয়োগ করে এবং কোনো অতিরিক্ত পরিমাণ বিনিয়োগ না করে 3 মাস রেখে দেয়। 3 মাসের শেষে তার মোট আয় হবে

- (A) ₹ 55 (B) ₹ 0  
(C) ₹ 270 (D) ₹ 45

**SPACE FOR ROUGH WORK**

15. मोनसे फालांगि फसंथानाव रां दोनथुमोब्ला दानसे जोबनायाव बे राडा फाननै जायो। नाथाय फाननै जागाफ्रोमबो फसंथाना ₹ 120 खौ दानख'नानै लाखियो। सासे सुबुंडा बे फालांगि फसंथानाव ₹ 105 जमा दोनो आरो जेबो उफ्रा रां होदेरालाबानो बियो बे रांखौ दान 3 लाखियो। दान 3 नि उनाव बिथानि गुबै आइया जागोन
- (A) ₹ 55 (B) ₹ 0  
(C) ₹ 270 (D) ₹ 45
15. एक फर्म में निवेश की गई एक निश्चित राशि एक महीने के अंत में दोगुनी हो जाएगी, लेकिन इसमें प्रत्येक दोगुनी पर ₹ 120 की राशि काट ली जाती है। एक व्यक्ति इस फर्म में ₹ 105 का निवेश करता है और बिना किसी अतिरिक्त राशि का निवेश किए 3 महीने तक जारी रखता है। 3 महीने के अंत में उसकी शुद्ध आय होगी
- (A) ₹ 55 (B) ₹ 0  
(C) ₹ 270 (D) ₹ 45

---

16. The count of prime numbers between 80 and 100 is

- (A) 2 (B) 5  
(C) 3 (D) 4

16. 80 आरू 100 ब माजत अबस्थित मौलिक संख्या केईटा ?

- (A) 2 (B) 5  
(C) 3 (D) 4

16. 80 एबं 100-एर मध्ये अबस्थित मौलिक संख्या कयटि ?

- (A) 2 (B) 5  
(C) 3 (D) 4

16. 80 आरो 100 नि गेजेराव मोनबेसे रोदा अनजिमा दं?

- (A) 2 (B) 5  
(C) 3 (D) 4

16. 80 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की गिनती है

- (A) 2 (B) 5  
(C) 3 (D) 4

---

---

SPACE FOR ROUGH WORK

17. Find the value of  $[(10^7 \cdot 10^2) \cdot (10^3 \cdot 10^2)] \cdot 10^5$ .

- (A) 100 (B) 200  
(C) 2 (D) 1

17.  $[(10^7 \cdot 10^2) \cdot (10^3 \cdot 10^2)] \cdot 10^5$  ৰ মান নিৰ্ণয় কৰক।

- (A) 100 (B) 200  
(C) 2 (D) 1

17.  $[(10^7 \cdot 10^2) \cdot (10^3 \cdot 10^2)] \cdot 10^5$ -এৰ মান নিৰ্ণয় কৰক।

- (A) 100 (B) 200  
(C) 2 (D) 1

17.  $[(10^7 \cdot 10^2) \cdot (10^3 \cdot 10^2)] \cdot 10^5$  নি মান দিহুন।

- (A) 100 (B) 200  
(C) 2 (D) 1

17.  $[(10^7 \cdot 10^2) \cdot (10^3 \cdot 10^2)] \cdot 10^5$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (A) 100 (B) 200  
(C) 2 (D) 1

18. If  $A : B = 3$ , then  $144A : 36B$  is

- (A) 4 (B) 12  
(C) 3 (D) 16

18. যদি  $A : B = 3$ , তেন্তে  $144A : 36B$  ৰ মান হ'ব

- (A) 4 (B) 12  
(C) 3 (D) 16

18. যদি  $A : B = 3$ , তৰে  $144A : 36B$ -ৰ মান হ'বে

- (A) 4 (B) 12  
(C) 3 (D) 16

**SPACE FOR ROUGH WORK**

18. जुदि  $A : B = 3$ , अब्ला  $144A : 36B$  नि माना

(A) 4

(B) 12

(C) 3

(D) 16

18. यदि  $A : B = 3$ , तो  $144A : 36B$  का मान है

(A) 4

(B) 12

(C) 3

(D) 16

19. The fraction equivalent of the recurring number  $2\overline{19}$  is

(A)  $\frac{271}{99}$

(B)  $\frac{217}{99}$

(C)  $\frac{219}{90}$

(D)  $\frac{291}{90}$

19. পৌনঃপুনিক সংখ্যা  $2\overline{19}$  ব সমতুল্য ভগ্নাংশ হৈছে

(A)  $\frac{271}{99}$

(B)  $\frac{217}{99}$

(C)  $\frac{219}{90}$

(D)  $\frac{291}{90}$

19. আবৃত্ত সংখ্যা  $2\overline{19}$ -এর সমতুল্য ভগ্নাংশ হল

(A)  $\frac{271}{99}$

(B)  $\frac{217}{99}$

(C)  $\frac{219}{90}$

(D)  $\frac{291}{90}$

19.  $2\overline{19}$  जोबथाहैरोडि जावलेफिननाय अनजिमानि समान बोखाव खोन्दो महरा

(A)  $\frac{271}{99}$

(B)  $\frac{217}{99}$

(C)  $\frac{219}{90}$

(D)  $\frac{291}{90}$

SPACE FOR ROUGH WORK

19. आवर्ती संख्या  $2\overline{19}$  का समतुल्य भिन्न होगा

(A)  $\frac{271}{99}$

(B)  $\frac{217}{99}$

(C)  $\frac{219}{90}$

(D)  $\frac{291}{90}$

20. The largest of  $2^6$ ,  $3^5$ ,  $4^4$  and  $5^3$  is

(A)  $2^6$

(B)  $3^5$

(C)  $4^4$

(D)  $5^3$

20.  $2^6$ ,  $3^5$ ,  $4^4$  আৰু  $5^3$  সংখ্যাকেইটাৰ সৰ্বোচ্চ মানৰ সংখ্যাটো হ'ব

(A)  $2^6$

(B)  $3^5$

(C)  $4^4$

(D)  $5^3$

20.  $2^6$ ,  $3^5$ ,  $4^4$  এবং  $5^3$ -এৰ মধ্য বৃহত্তমটি হল

(A)  $2^6$

(B)  $3^5$

(C)  $4^4$

(D)  $5^3$

20.  $2^6$ ,  $3^5$ ,  $4^4$  आरु  $5^3$  नि गेजेराव देरसिना

(A)  $2^6$

(B)  $3^5$

(C)  $4^4$

(D)  $5^3$

20.  $2^6$ ,  $3^5$ ,  $4^4$  और  $5^3$  में सबसे बड़ा है

(A)  $2^6$

(B)  $3^5$

(C)  $4^4$

(D)  $5^3$

SPACE FOR ROUGH WORK

21. For a bicycle rider, it is seen that for every two complete pedaling, the front wheel of the bicycle makes 3 complete turns. If the radius of the bicycle wheel is 70 cm, the distance (in metres) covered by the bicycle in 10 complete pedaling is
- (A) 7 (B) 14  
(C) 21 (D) 28
21. এজন চাইকেল আৰোহীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে তেওঁ পেডেলত দুটা সম্পূৰ্ণ পাক মাৰিলে চাইকেলখনৰ আগচকাটোৱে সম্পূৰ্ণ 3 পাক মাৰে। যদি চাইকেলৰ চকাৰ ব্যাসার্ধ 70 চে. মি. হয়, তেন্তে পেডেলৰ 10টা সম্পূৰ্ণ পাকত চাইকেলখনে কিমানদূৰ পথ (মিটাৰ এককত) অতিক্ৰম কৰিব?
- (A) 7 (B) 14  
(C) 21 (D) 28
21. এক সাইকেল আৰোহীৰ ক্ষেত্ৰে দেখা যায় যে দুটি প্যাডেল সম্পূৰ্ণ হলে সাইকেলৰ সামনেৰে চকাৰ তিনিটি আবৰ্তন পূৰ্ণ হয়। যদি সাইকেলৰ চকাৰ ব্যাসার্ধ 70 সে. মি. হয়, তৰে 10টি সম্পূৰ্ণ প্যাডেলে সাইকেলটিৰ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব (মিটাৰে) হল
- (A) 7 (B) 14  
(C) 21 (D) 28
21. सासे साइकेल सालायग्राया नुबायदि, बियो पेदेलखौ खन 2 सोर फिर्दिब्ला, सिगांनि साखाया खन 3 सोरगिदिडो। जुदि साइकेल साखानि सखावा 70 से. मि. जायो, अब्ला पेदेलखौ खन 10 सोर फिर्दिब्ला, साइकेला बेसे गोजान (मिटाराव) खारलांगोन?
- (A) 7 (B) 14  
(C) 21 (D) 28
21. एक साइकिल सवार के लिए यह देखा गया कि प्रत्येक दो पूर्ण पैडलिंग के लिए साइकिल का अगला पहिया 3 पूर्ण घुमाव बनाता है। यदि साइकिल के पहिये की त्रिज्या 70 से० मी० है, तो 10 पूर्ण पैडलिंग में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी (मीटर में) है
- (A) 7 (B) 14  
(C) 21 (D) 28

---



---

**SPACE FOR ROUGH WORK**

22. The base and the height of a right-angled triangle are equal in magnitude and the length of the third side is  $2\sqrt{2}$  cm. The area of the triangle is
- (A) 2 sq. cm (B)  $2\sqrt{2}$  sq. cm  
(C) 4 sq. cm (D)  $4\sqrt{2}$  sq. cm
22. এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভূমি আৰু উচ্চতাৰ দৈৰ্ঘ্য সমান আৰু তৃতীয়টো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য  $2\sqrt{2}$  চে. মি.। ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰফল
- (A) 2 বৰ্গ চে. মি. (B)  $2\sqrt{2}$  বৰ্গ চে. মি.  
(C) 4 বৰ্গ চে. মি. (D)  $4\sqrt{2}$  বৰ্গ চে. মি.
22. একটি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভূমি ও উচ্চতাৰ পৰিমাণ সমান এবং তৃতীয় বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য  $2\sqrt{2}$  সে. মি.। ত্ৰিভুজটিৰ ক্ষেত্ৰফল হল
- (A) 2 বৰ্গ সে. মি. (B)  $2\sqrt{2}$  বৰ্গ সে. মি.  
(C) 4 বৰ্গ সে. মি. (D)  $4\sqrt{2}$  বৰ্গ সে. মি.
22. गंसे खनाथि आखान्थिथामनि हासा आरो जौथाइनि गोलावा एखे आरो बिनि 3थि आखान्थिनि लाउथाइया  $2\sqrt{2}$  से. मि.। बे आखान्थिथामनि कालिया
- (A) 2 बर्ग से. मि. (B)  $2\sqrt{2}$  बर्ग से. मि.  
(C) 4 बर्ग से. मि. (D)  $4\sqrt{2}$  बर्ग से. मि.
22. एक समकोण त्रिभुज का आधार और उसकी ऊँचाई परिमाण में बराबर है और तीसरी भुजा की लम्बाई  $2\sqrt{2}$  से० मी० है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है
- (A) 2 वर्ग से० मी० (B)  $2\sqrt{2}$  वर्ग से० मी०  
(C) 4 वर्ग से० मी० (D)  $4\sqrt{2}$  वर्ग से० मी०

23. In a range of consecutive numbers starting with 1, all the even numbers are removed. From the remaining, consider the first 7 numbers. The sum of these 7 numbers is
- (A) 35 (B) 42  
(C) 49 (D) 56

---

**SPACE FOR ROUGH WORK**

---

23. 1 ব পৰা আৰম্ভ কৰা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ কোনো এটা পৰিসৰত ইয়াত থকা সকলোবোৰ যুগ্ম সংখ্যা আঁতৰাই দিয়া হ'ল। অৱশিষ্ট সংখ্যাসমূহৰ প্ৰথম 7টা সংখ্যা বিবেচনা কৰা হ'ল। এই 7টা সংখ্যাৰ মুঠ যোগফল হৈছে
- (A) 35 (B) 42  
(C) 49 (D) 56
23. 1 দিয়ে শুরু হওয়া ক্ৰমিক সংখ্যাগুলিৰ পৰিসৰ থেকে সমস্ত জোড় সংখ্যা সরিয়ে ফেলা হল। অবশিষ্টগুলি থেকে প্ৰথম 7টি সংখ্যা বিবেচনা কৰা হয়। এই 7টি সংখ্যাৰ যোগফল হল
- (A) 35 (B) 42  
(C) 49 (D) 56
23. 1 जॉ जुरिजेननाय दौसे अनजिमा लारिनिफ्राय गासै जरा अनजिमाफोरखौ बोखारनाय जाबाय। थालानायफोरनिफ्राय सिगानि मोन 7 अनजिमाफोरखौ साननानै नाय। बे मोन 7 अनजिमाफोरनि दाजाबगासैया जागोन
- (A) 35 (B) 42  
(C) 49 (D) 56
23. 1 से शुरू होने वाली लगातार संख्याओं की शृंखला में, सभी सम संख्याएँ हटा दी जाती हैं। शेष में से प्रथम 7 संख्याओं पर विचार कीजिए। इन 7 संख्याओं का योग है
- (A) 35 (B) 42  
(C) 49 (D) 56

24. Two numbers  $A$  and  $B$  are first added and squared to get  $C$ . In the next step,  $B$  is subtracted from  $A$  and the result is squared to get  $D$ . The result  $C - D$  expressed in terms of  $A$  and  $B$  is
- (A)  $A(A + B)$  (B)  $4(A + B)$   
(C)  $\frac{AB}{4}$  (D)  $4AB$
24. দুটা সংখ্যা  $A$  আৰু  $B$  ৰ যোগফলক বৰ্গ কৰাত  $C$  পোৱা গ'ল। পৰৱৰ্তী চাপত  $A$  ৰ পৰা  $B$  বিয়োগ কৰি বৰ্গ কৰাত  $D$  পোৱা গ'ল।  $C - D$  ক  $A$  আৰু  $B$  ত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰকাশৰাশিটো হ'ব
- (A)  $A(A + B)$  (B)  $4(A + B)$   
(C)  $\frac{AB}{4}$  (D)  $4AB$

---

**SPACE FOR ROUGH WORK**

---



24. দুটি সংখ্যা  $A$  ও  $B$  কে প্রথমে যোগ করা হয় এবং বর্গ করে  $C$  পাওয়া যায়। পরবর্তী ধাপে  $A$  থেকে  $B$  বিয়োগ করা হয় এবং ফলাফল বর্গ করলে  $D$  পাওয়া যায়।  $A$  ও  $B$ -এর সাহায্যে পরিণাম  $C - D$  কে প্রকাশ করলে হবে

(A)  $A(A - B)$

(B)  $4(A - B)$

(C)  $\frac{AB}{4}$

(D)  $4AB$

24.  $A$  আরো  $B$  অনজিমাখৌ দাজাখননৈ আরো উনাব বর্গ দিহুনননৈ  $C$  মোনবায়। উননি ফারিয়াব  $B$  খৌ  $A$  নিফ্রায় দানখ'ননৈ বিনি ফিননি বর্গ দিহুনননৈ  $D$  মোনবায়।  $C - D$  খৌ  $A$  আরো  $B$  বিদাভাব ফোরমায়ব্লা

(A)  $A(A - B)$

(B)  $4(A - B)$

(C)  $\frac{AB}{4}$

(D)  $4AB$

24.  $C$  प्राप्त करने के लिए पहले दो संख्याओं  $A$  और  $B$  को जोड़ा जाता है तथा उनका वर्ग किया जाता है। अगले चरण में,  $A$  में से  $B$  को घटाया जाता है और  $D$  प्राप्त करने के लिए इस परिणाम का वर्ग किया जाता है। परिणाम  $C - D$  को  $A$  और  $B$  के रूप में व्यक्त करने पर होगा

(A)  $A(A - B)$

(B)  $4(A - B)$

(C)  $\frac{AB}{4}$

(D)  $4AB$

25. Find the least number by which 1250 must be multiplied to make it a perfect square.

(A) 4

(B) 3

(C) 5

(D) 2

25. ন্যূনতম কি সংখ্যাৰে 1250ক পূৰণ কৰিলে এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পোৱা যাব ?

(A) 4

(B) 3

(C) 5

(D) 2

25. সৰ্বনিম্ন সংখ্যা যাব দ্বাৰা 1250 কে গুণ কৰিলে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা পাওয়া যায় সেটি নির্ণয় করুন।

(A) 4

(B) 3

(C) 5

(D) 2

SPACE FOR ROUGH WORK

25. 1250 खौ आबुं बर्ग खालामनोब्ला बबे दुयसिन अनजिमाजों सानजाबनांगोन।

(A) 4 (B) 3

(C) 5 (D) 2

25. वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 1250 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए।

(A) 4 (B) 3

(C) 5 (D) 2

26. When the numerator of a fraction is multiplied by 4 and the denominator by 9, the fraction reverses. The fraction is

(A)  $\frac{4}{5}$  (B)  $\frac{2}{3}$

(C)  $\frac{5}{4}$  (D)  $\frac{3}{2}$

26. এটা ভগ্নাংশৰ লবক 4 বে আৰু হৰক 9 বে পূৰণ কৰিলে ভগ্নাংশটোৰ প্ৰতিলোম পোৱা যায়। ভগ্নাংশটো হৈছে

(A)  $\frac{4}{5}$  (B)  $\frac{2}{3}$

(C)  $\frac{5}{4}$  (D)  $\frac{3}{2}$

26. একটি ভগ্নাংশের লবকে 4 দ্বারা এবং হরকে 9 দ্বারা গুণ করা হলে ভগ্নাংশটি উল্টে যায়। ভগ্নাংশটি হল

(A)  $\frac{4}{5}$  (B)  $\frac{2}{3}$

(C)  $\frac{5}{4}$  (D)  $\frac{3}{2}$

26. जेब्ला मोनसे बोखावखोन्दोनि फानखौ 4 जों सानजाबो आरो जबखौ 9 जों, बे बोखावखोन्दोआ उल्था गिदिडो। बे बोखावखोन्दोआ

(A)  $\frac{4}{5}$  (B)  $\frac{2}{3}$

(C)  $\frac{5}{4}$  (D)  $\frac{3}{2}$

SPACE FOR ROUGH WORK

26. जब किसी भिन्न के अंश को 4 से और हर को 9 से गुणा किया जाता है, तो भिन्न उलट जाता है। वह भिन्न है

(A)  $\frac{4}{5}$

(B)  $\frac{2}{3}$

(C)  $\frac{5}{4}$

(D)  $\frac{3}{2}$

27. At what percentage of simple interest does an amount of money double in 12 years?

(A)  $9\frac{1}{2}\%$

(B)  $8\frac{1}{2}\%$

(C)  $8\frac{1}{3}\%$

(D)  $9\frac{1}{3}\%$

27. सबल सूतत कोनो मूलधन 12 बहबब मूबत दुगुण ह'वलै सबल सूतब हब किमान ह'ब लागिब ?

(A)  $9\frac{1}{2}\%$

(B)  $8\frac{1}{2}\%$

(C)  $8\frac{1}{3}\%$

(D)  $9\frac{1}{3}\%$

27. सरल सूदेर कत शतांश हारे मूलधन 12 बहरे द्विगुण ह्य ?

(A)  $9\frac{1}{2}\%$

(B)  $8\frac{1}{2}\%$

(C)  $8\frac{1}{3}\%$

(D)  $9\frac{1}{3}\%$

27. मोनसे आसोलखौ बोसोराव बेसे हरै गोरलै सुद सानब्ला 12 बोसोराव बे आसोला फाननै जागोन?

(A)  $9\frac{1}{2}\%$

(B)  $8\frac{1}{2}\%$

(C)  $8\frac{1}{3}\%$

(D)  $9\frac{1}{3}\%$

27. साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी?

(A)  $9\frac{1}{2}\%$

(B)  $8\frac{1}{2}\%$

(C)  $8\frac{1}{3}\%$

(D)  $9\frac{1}{3}\%$

SPACE FOR ROUGH WORK

28. The ratio of the radii of two circles is 1 : 3. The ratio of their areas is

- (A) 1 : 6 (B) 2 : 9  
(C) 1 : 9 (D) 6 : 9

28. দুটা বৃত্তৰ ব্যাসার্ধৰ অনুপাত 1 : 3. বৃত্ত দুটাৰ ক্ষেত্রফলৰ অনুপাত হ'ব

- (A) 1 : 6 (B) 2 : 9  
(C) 1 : 9 (D) 6 : 9

28. দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত 1 : 3. তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হল

- (A) 1 : 6 (B) 2 : 9  
(C) 1 : 9 (D) 6 : 9

28. बरेखन मोननैनि सखावफोरनि रुजुजखाया 1 : 3. बिसोरनि कालिनि रुजुजखाया

- (A) 1 : 6 (B) 2 : 9  
(C) 1 : 9 (D) 6 : 9

28. दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 : 3 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा

- (A) 1 : 6 (B) 2 : 9  
(C) 1 : 9 (D) 6 : 9

---

29. 100% of 100 when added to 200% of 200 would result

- (A) 300 (B) 400  
(C) 500 (D) 600

29. 100 ব 100% ব লগত 200 ব 200% যোগ কৰিলে ফলাফল হ'ব

- (A) 300 (B) 400  
(C) 500 (D) 600

29. 100-এৰ 100%-এৰ সাত্বে 200-এৰ 200% যোগ কৰিলে ফলাফল হ'বে

- (A) 300 (B) 400  
(C) 500 (D) 600

---

SPACE FOR ROUGH WORK

29. 100नि 100% आरो 200नि 200% खौ दाजाबोब्ला मोनगोन
- (A) 300 (B) 400  
(C) 500 (D) 600

29. 200 के 200% में 100 का 100% जोड़ने पर परिणाम प्राप्त होगा
- (A) 300 (B) 400  
(C) 500 (D) 600

- 
30. If  $a/b = 8$ ,  $b/c = 20$  and  $a/c = 18$ , then the value of  $a^2/b^2$  is
- (A) 34 (B) 43  
(C) 46 (D) 64

30. यदि  $a/b = 8$ ,  $b/c = 20$  आरु  $a/c = 18$ , तेंसे  $a^2/b^2$  ब मान ह'ब
- (A) 34 (B) 43  
(C) 46 (D) 64

30. यदि  $a/b = 8$ ,  $b/c = 20$  एबं  $a/c = 18$  ह्य तबे  $a^2/b^2$ -एर मान हबे
- (A) 34 (B) 43  
(C) 46 (D) 64

30. जुदि  $a/b = 8$ ,  $b/c = 20$  आरो  $a/c = 18$ , अब्ला  $a^2/b^2$  नि माना
- (A) 34 (B) 43  
(C) 46 (D) 64

30. यदि  $a/b = 8$ ,  $b/c = 20$  और  $a/c = 18$ , तो  $a^2/b^2$  का मान है
- (A) 34 (B) 43  
(C) 46 (D) 64

---

---

SPACE FOR ROUGH WORK

31. If  $2^x = 32$ , then the value of  $x$  is

- (A) 4 (B) 5  
(C) 6 (D) 7

31. যদি  $2^x = 32$ , তেন্তে  $x$  ৰ মান হ'ব

- (A) 4 (B) 5  
(C) 6 (D) 7

31. যদি  $2^x = 32$  হয়, তৰে  $x$ -এৰ মান হল

- (A) 4 (B) 5  
(C) 6 (D) 7

31. যদি  $2^x = 32$ , অল্লা  $x$  নি মানা

- (A) 4 (B) 5  
(C) 6 (D) 7

31. यदि  $2^x = 32$ , तो  $x$  का मान है

- (A) 4 (B) 5  
(C) 6 (D) 7

---

32. The sum of 5 consecutive odd numbers is found to be 95. The largest of the numbers is

- (A) 17 (B) 21  
(C) 23 (D) 19

32. 5টা ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল 95 পোৱা গ'ল। সংখ্যাকেইটাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে

- (A) 17 (B) 21  
(C) 23 (D) 19

---

**SPACE FOR ROUGH WORK**

32. 5টি ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল 95 পাওয়া গেল। সংখ্যাগুলির মধ্যে বৃহত্তমটি হল

(A) 17

(B) 21

(C) 23

(D) 19

32. फारियै मोन 5 बेज'रा अनजिमाफोरनि दाजाबगासैया 95. बयनिखुइ देरसिन अनजिमाया जाबाय

(A) 17

(B) 21

(C) 23

(D) 19

32. 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 95 पाया जाता है। सबसे बड़ी संख्या है

(A) 17

(B) 21

(C) 23

(D) 19

33. If the decimal number  $34p5$  is divisible by 9, then the value of  $p$  is

(A) 8

(B) 7

(C) 4

(D) 6

33. যদি দশমিক সংখ্যা  $34p5$  টো 9 বে বিভাজ্য হয়, তেন্তে  $p$  ব মান হ'ব

(A) 8

(B) 7

(C) 4

(D) 6

33. যদি दशमिक संख्या  $34p5$  टि 9 द्वारा विभाज्य হয়, তাহলে  $p$ -এর মান হবে

(A) 8

(B) 7

(C) 4

(D) 6

SPACE FOR ROUGH WORK

33. जुदि दशमिक अनजिमा  $34p5$  खौ 9 जों रानजायो, अब्ला  $p$  नि माना

- (A) 8 (B) 7  
(C) 4 (D) 6

33. यदि दशमलव संख्या  $34p5$ , 9 से विभाज्य है, तो  $p$  का मान है

- (A) 8 (B) 7  
(C) 4 (D) 6

34. The maximum area of the circle that can be drawn within a square of side 4 cm is

- (A)  $4^2 \text{ cm}^2$  (B)  $4 \text{ cm}^2$   
(C)  $\frac{1}{4} \text{ cm}^2$  (D)  $\frac{2}{4} \text{ cm}^2$

34. 4 से. मि. बाह्य बर्गक्षेत्र एटाब तितरत आँकिव पवा वृत्त एटाब सर्वोच्च क्षेत्रफल ह'व

- (A)  $4^2$  बर्ग से. मि. (B) 4 बर्ग से. मि.  
(C)  $\frac{1}{4}$  बर्ग से. मि. (D)  $\frac{2}{4}$  बर्ग से. मि.

34. 4 से. मि. बाह्यविशिष्ट एकटि बर्गक्षेत्र तितरे आँकते पारा वृत्त सर्वोच्च क्षेत्रफल हवे

- (A)  $4^2$  बर्ग से. मि. (B) 4 बर्ग से. मि.  
(C)  $\frac{1}{4}$  बर्ग से. मि. (D)  $\frac{2}{4}$  बर्ग से. मि.

34. 4 से. मि. आखान्धि गोनां बर्गानि सिद्धाव बोनो हानाय बैखननि देरसिन कालिया

- (A)  $4^2$  बर्ग से. मि. (B) 4 बर्ग से. मि.  
(C)  $\frac{1}{4}$  बर्ग से. मि. (D)  $\frac{2}{4}$  बर्ग से. मि.

SPACE FOR ROUGH WORK



34. 4 से० मी० आकार के एक वर्ग के भीतर खींचे जा सकने वाले वृत्त का अधिकतम क्षेत्रफल है

(A)  $4^2$  वर्ग से० मी०

(B) 4 वर्ग से० मी०

(C)  $\frac{4}{4}$  वर्ग से० मी०

(D)  $\frac{2}{4}$  वर्ग से० मी०

35. If today is Sunday, then the day after 92 days will be

(A) Saturday

(B) Friday

(C) Sunday

(D) Monday

35. যদি আজি ববিবার হয়, তেন্তে 92 দিনৰ মূৰৰ দিনটো হ'ব

(A) শনিবার

(B) শুক্রবার

(C) ববিবার

(D) সোমবার

35. যদি आज रबिबार हय, ताहले 92 दिन परेर दिनटि हबे

(A) शनिबार

(B) शुक्रबार

(C) रबिबार

(D) सोमबार

35. जुदि दिनैनि साना रबिबार, अब्ला 92 साननि उनाव मा सान जागोन?

(A) शनिबार

(B) शुक्रबार

(C) रबिबार

(D) समबार

35. यदि आज रबिबार है, तो 92 दिनों के बाद का दिन होगा

(A) शनिवार

(B) शुक्रवार

(C) रबिवार

(D) सोमवार

SPACE FOR ROUGH WORK

**36.** Identify the collective noun for 'dogs'.

- (A) Gang
  - (B) Herd
  - (C) Team
  - (D) Pack
- 

**37.** Which of the following punctuation marks is called 'hyphen'?

- (A) (-)
  - (B) (/)
  - (C) (')
  - (D) (:)
- 

**38.** What is the opposite of 'sorrow'?

- (A) Joy
  - (B) Happy
  - (C) Laugh
  - (D) Beauty
- 

**39.** Which of the following means 'to get rid of a problem'?

- (A) To hammer it out
  - (B) To get to the bottom of
  - (C) To get the monkey off one's back
  - (D) To get the acts together
- 

**40.** Identify the grammatically incorrect sentence.

- (A) I want to go home now.
  - (B) I wish to go home now.
  - (C) I shall go home now.
  - (D) I went to go home now.
-

**41.** Choose the correct option :

Is your brother \_\_\_\_\_ to the gym?

- (A) gone
  - (B) going
  - (C) go
  - (D) went
- 

**42.** Which pronoun is used for 'non-living thing'?

- (A) I
  - (B) We
  - (C) Us
  - (D) It
- 

**43.** Identify the incorrectly spelt word.

- (A) Monkey
  - (B) Moniker
  - (C) Matress
  - (D) Molten
- 

**44.** Identify the adverb in the following sentence :

He could not go deep into the forest.

- (A) Deep
  - (B) Go
  - (C) He
  - (D) Into
- 

**45.** From the list below, identify the antonym of 'cheap'.

- (A) Price
  - (B) Poor
  - (C) Expensive
  - (D) Rice
-

46. What is the synonym of 'furious'?

- (A) Laughter
  - (B) Witch
  - (C) Impure
  - (D) Angry
- 

47. Identify the incorrectly spelt word.

- (A) Square
  - (B) Parpendicular
  - (C) Diagonal
  - (D) Triangle
- 

48. Give one-word substitution for 'a person who loots and plunders ships'.

- (A) Robber
  - (B) Pirate
  - (C) Dacoit
  - (D) Looter
- 

49. What is meant by 'to get the green signal' ?

- (A) To stop others
  - (B) To go away
  - (C) To get permission
  - (D) To get the keys of a car
- 

50. Fill in the blank :

Lokesh can jump very \_\_\_\_\_.

- (A) high
  - (B) higher
  - (C) highest
  - (D) tall
-

51. What is the collective noun for 'fish'?

- (A) Swarm
  - (B) Pack
  - (C) School
  - (D) Herd
- 

52. Fill in the correct conjunctions in the following :

\_\_\_\_\_ Reshma \_\_\_\_\_ Padma knew the directions, and now they are lost.

- (A) Either, or
  - (B) Both, and
  - (C) Not only, but also
  - (D) Neither, nor
- 

53. Which of the following punctuation marks is called 'apostrophe' ?

- (A) (-)
  - (B) (/)
  - (C) (')
  - (D) (:)
- 

54. Which of the following means similar to 'elevated' ?

- (A) Topped
  - (B) Wished
  - (C) Promoted
  - (D) Transferred
- 

55. What is meant by 'to create a ruckus' ?

- (A) Make loud noise
  - (B) An artistic work
  - (C) Produce music
  - (D) Bake a cake
-

**56.** Which of the following sentences is correct?

- (A) She had not coming to the wedding.
  - (B) She is not come to the wedding.
  - (C) She did not coming to the wedding.
  - (D) She is not coming to the wedding.
- 

**57.** Choose the correct option :

We \_\_\_\_\_ the National Anthem every morning at school.

- (A) sanged
  - (B) sing
  - (C) sings
  - (D) singed
- 

**58.** Which of the following pronouns refers to 'myself' ?

- (A) We
  - (B) They
  - (C) I
  - (D) You
- 

**59.** Identify the incorrectly spelt word.

- (A) Damsel
  - (B) Wicked
  - (C) Volcano
  - (D) Mountein
- 

**60.** Identify the correctly spelt word.

- (A) Mongrel
  - (B) Marval
  - (C) Martal
  - (D) Middel
-

**61.** Identify the preposition in the following sentence :

The cat was sleeping under the cot.

- (A) Sleeping
  - (B) Under
  - (C) Cot
  - (D) Was
- 

**62.** Identify the incorrect set.

- (A) Bad : Worse : Worst
  - (B) Poor : Poorest : Poorer
  - (C) Rich : Richer : Richest
  - (D) Good : Better : Best
- 

**63.** Identify the verb in the following sentence :

Neeraj ran very fast.

- (A) Very
  - (B) Neeraj
  - (C) Fast
  - (D) Ran
- 

**64.** Which word of the following is an example of pronoun?

- (A) Again
  - (B) Pink
  - (C) They
  - (D) Speed
- 

**65.** What would be the antonym of 'friend' ?

- (A) Foe
  - (B) Unfriend
  - (C) Dislike
  - (D) Buddy
-

**66.** From the list below, identify the synonym of 'lament'.

- (A) Sad
  - (B) Mourn
  - (C) Copied
  - (D) Molecule
- 

**67.** Which word is incorrectly spelt?

- (A) Basically
  - (B) Essentially
  - (C) Primarily
  - (D) Verbally
- 

**68.** Give one-word substitution for 'life history of a person written by another person'.

- (A) Autobiography
  - (B) Biography
  - (C) Monograph
  - (D) Bigamy
- 

**69.** What does 'in a nutshell' mean?

- (A) Peanuts and almonds
  - (B) Very tough explanation
  - (C) Expressed in short
  - (D) Important discussion
- 

**70.** Fill in the blank :

Tuhin ran \_\_\_\_\_ than Zubin to win the race.

- (A) fast
  - (B) faster
  - (C) fastest
  - (D) fasting
-



71. Which of the following mountain ranges is in North-East India?

- (A) Barail Range (B) Shivalik Range  
(C) Satpura Range (D) Aravalli Range

71. নিম্নলিখিত কোন পৰ্বতমালা উত্তৰ-পূব ভাৰতত অৱস্থিত ?

- (A) বৰাইল পৰ্বতমালা (B) শিৱালিক পৰ্বতমালা  
(C) সাতপুৰা পৰ্বতমালা (D) আৰাবলী পৰ্বতমালা

71. নীচের পৰ্বতশ্ৰেণীগুলির মধ্যে কোনটি উত্তৰপূৰ্ব ভাৰতে অৱস্থিত ?

- (A) বোৱাইল পৰ্বতশ্ৰেণী (B) শিৱালিক পৰ্বতশ্ৰেণী  
(C) সাতপুৰা পৰ্বতশ্ৰেণী (D) আৰাবলী পৰ্বতশ্ৰেণী

71. গাহায়নি বৰে হাজোমা লারিয়া সা-সানজা ভাৰতাব দং?

- (A) বৰাইল হাজোমা লারি (B) শিৱালিক হাজোমা লারি  
(C) সতপুৰা হাজোমা লারি (D) আৰাবলী হাজোমা লারি

71. निम्नलिखित में से कौन-सी पर्वत शृंखला पूर्वोत्तर भारत में है?

- (A) बोरेल श्रेणी (B) शिवालिक श्रेणी  
(C) सतपुड़ा श्रेणी (D) अरावली पर्वत श्रेणी

72. Which of the following statements is incorrect?

- (A) Lakshadweep is a Union Territory of India.  
(B) Maldives is a Union Territory of India.  
(C) Andaman and Nicobar Islands is a Union Territory of India.  
(D) Puducherry is a Union Territory of India.

72. নিম্নলিখিত কোনটো উক্তি অশুদ্ধ ?

- (A) লাক্ষাদ্বীপ ভাৰতৰ এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য ।  
(B) মালদ্বীপ ভাৰতৰ এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য ।  
(C) আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ ভাৰতৰ এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য ।  
(D) পুডুচেরী ভাৰতৰ এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য ।

72. নীচের কোন্ বিবৃতিটি অশুদ্ধ ?

- (A) লাক্ষদ্বীপ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।
- (B) মালদ্বীপ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।
- (C) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।
- (D) পুদুচেরি ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

72. गाहायनि बबे बिबुंथिया गोरोन्थि गोनां?

- (A) लक्षद्वीप भारतनि गंसे मिरुजों खुंजानाय राइजो।
- (B) मालद्वीप भारतनि गंसे मिरुजों खुंजानाय राइजो।
- (C) आन्दामान आरो निक'बर द्विपगोबाया भारतनि गंसे मिरुजों खुंजानाय राइजो।
- (D) पुदुचेरीया भारतनि गंसे मिरुजों खुंजानाय राइजो।

72. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

- (A) लक्षद्वीप भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है।
- (B) मालद्वीप भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है।
- (C) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है।
- (D) पुदुचेरी भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है।

73. The Equator, the Tropic of Capricorn and the Tropic of Cancer pass through which continent?

- (A) Asia
- (B) Australia
- (C) South America
- (D) Africa

73. কোনখন মহাদেশৰ মাজেৰে বিষুবৰেখা, মকৰক্রান্তি বেখা আৰু কৰ্কটক্রান্তি বেখা পাৰ হৈ গৈছে?

- (A) এছিয়া
- (B) অষ্ট্ৰেলিয়া
- (C) দক্ষিণ আমেৰিকা
- (D) আফ্ৰিকা

73. বিষুবৰেখা, মকৰক্রান্তি বেখা এবং কৰ্কটক্রান্তি বেখা কোন মহাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে?

- (A) এশিয়া
- (B) অষ্ট্ৰেলিয়া
- (C) দক্ষিণ আমেৰিকা
- (D) আফ্ৰিকা

73. बिसुब हांखो, मकर हांखो आरो कर्कट हांखोआ बबे हादोरमाजों बारलाडो?

- (A) एसिया (B) अस्ट्रेलिया  
(C) खोला आमेरिका (D) आफ्रिका

73. भूमध्यरेखा, मकररेखा और कर्करेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं?

- (A) एशिया (B) ऑस्ट्रेलिया  
(C) दक्षिण अमेरिका (D) अफ्रीका

74. Which of the following is an island State of the United States of America?

- (A) Madagascar (B) Canary Islands  
(C) Hawaii (D) Greenland

74. निम्नलिखित कोनखन आमेरिका युञ्जबाष्ट्रुब एखन द्वीपराज्य ?

- (A) मादागास्कार (B) केनेरि आईलेण्ड  
(C) हवाई (D) ग्रीनलेण्ड

74. नीचेर कोनखन मार्किन युञ्जबाष्ट्रुब एखन द्वीपराज्य ?

- (A) मादागास्कार (B) कानारि द्वीप  
(C) हावाइ (D) ग्रीनल्याण्ड

74. गाहायनि बबेया आमेरिका जथाइ हादरनि गंसे द्विप राइजो?

- (A) मादागास्कर (B) केनेरी द्विप  
(C) हावाइ (D) ग्रीनलेण्ड

74. निम्नलिखित में से कौन-सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप राज्य है?

- (A) मेडागास्कर (B) कैनेरी द्वीप  
(C) हवाई (D) ग्रीनलैंड

75. Sudden burst into the open of hot water and vapour from deep underground is termed as
- (A) geyser (B) volcano  
(C) tornado (D) tsunami
75. ভূগর্ভৰ গভীৰতাৰ পৰা গৰম পানী আৰু বাষ্প বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে নিৰ্গত হোৱা পৰিঘটনাক কোৱা হয়
- (A) উষ্ণ প্ৰস্ৰবণ (B) আগ্নেয়গিৰি  
(C) টৰ্নেডো (D) চুনামি
75. গভীৰ ভূগর্ভ থেকে আকস্মিক বিস্ফোৰণে গৰম জল এবং বাষ্প নিৰ্গত হওয়াকে বলে
- (A) উষ্ণ প্ৰস্ৰবণ (B) আগ্নেয়গিৰি  
(C) ঘূৰ্ণিবায়ু (D) সুনামি
75. गोथी हार्मिनिफ्राय हरखाब दै गुदुं आरौ खफ' ओंखारनायखौ बुडौ
- (A) बिदुं फुंखा (B) अरुं मोखां  
(C) बारमोदाइ (D) सुनामि
75. गहरे भूगर्भ से खुले में गर्म पानी और वाष्प के अचानक फूटने को कहा जाता है
- (A) गीज़र (B) ज्वालामुखी  
(C) बवंडर (D) सुनामी

- 
76. Which of the following is **not** a component of the Constitution of India?
- (A) The Directive Principles of State Policy  
(B) The Directive Rights of the Centre  
(C) The Fundamental Rights  
(D) The Fundamental Duties
76. নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ উপাদান নহয় ?
- (A) ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি  
(B) কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক অধিকাৰ  
(C) মৌলিক অধিকাৰ  
(D) মৌলিক কৰ্তব্য
76. नीचेर कोनटि भारतेर संविधानेर उपदान नय ?
- (A) राष्ट्र परिचालनार निर्देशमूलक नीति  
(B) केन्द्रेर निर्देशिक अधिकार  
(C) मौलिक अधिकार  
(D) मौलिक कर्तव्य

76. गाहायनि बबेया भारतनि संबिजिदनि बाहागो नडा?

- (A) हायुंखान्थिनि बिथोननां मावहाबा
- (B) मिरुवारि बिथोननां मोनथाइ
- (C) गुदिनां मोनथाइ
- (D) गुदिनां मावनां हाबा

76. निम्नलिखित में से कौन-सा अंश भारत के संविधान में नहीं है?

- (A) राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत
- (B) केंद्र के निर्देशक अधिकार
- (C) मौलिक अधिकार
- (D) मौलिक कर्तव्य

77. A continuous rise in the price level is called

- (A) stagflation
- (B) deflation
- (C) hyperinflation
- (D) inflation

77. मूल्य स्तर क्रमागत वृद्धि को कहा है

- (A) स्थिरता
- (B) अवस्था
- (C) अति मुद्रास्फीति
- (D) मुद्रास्फीति

77. मूल्यस्तर क्रमागत वृद्धि को कहा है

- (A) निश्चलता-स्थिति
- (B) अवस्था
- (C) अति मुद्रास्फीति
- (D) मुद्रास्फीति

77. थाद'नाय गैयालाबानो बेसेन बांलांबाय थानायखौ बुडो

- (A) स्टेगफ्लेशन
- (B) डिफ्लेशन
- (C) हाइपरइन्फ्लेशन
- (D) इन्फ्लेशन

77. मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है

- (A) स्टेगफ्लेशन
- (B) डिफ्लेशन
- (C) हाइपरइन्फ्लेशन
- (D) इन्फ्लेशन

78. What does DAY stand for in the National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)?

- (A) District Availability Yojana
- (B) Deendayal Antyodaya Yojana
- (C) Deendayal Ayurvedic Yojana
- (D) District Achievement Yojana

78. বাদ্বীয় গ্রাম্য জীবিকা অভিযান (DAY-NRLM)ত DAYয়ে কি বুজায় ?

- (A) District Availability Yojana
- (B) Deendayal Antyodaya Yojana
- (C) Deendayal Ayurvedic Yojana
- (D) District Achievement Yojana

78. জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (DAY-NRLM)-এ DAY বলতে কী বোঝায় ?

- (A) District Availability Yojana
- (B) Deendayal Antyodaya Yojana
- (C) Deendayal Ayurvedic Yojana
- (D) District Achievement Yojana

78. नेशनल रुरल लाइभललहुद मलशन (DAY-NRLM)आव DAYआ मा बुजायो?

- (A) डलसट्रलकट अडुललबलललतल डुऑनल (District Availability Yojana)
- (B) डलनदडलल अन्तदड डुऑनल (Deendayal Antyodaya Yojana)
- (C) डलनदडलल आडुर्वेदलक डुऑनल (Deendayal Ayurvedic Yojana)
- (D) डलसट्रलकट ँऑलडुडुनेन्ट डुऑनल (District Achievement Yojana)

78. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मलशन [National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM)] में DAY का कडुा अरुथ है?

- (A) जललल डुडलडुधतल डुऑनल (District Availability Yojana)
- (B) डलनदडलल अंतुडुडुडु डुऑनल (Deendayal Antyodaya Yojana)
- (C) डलनदडलल आडुर्वेदलक डुऑनल (Deendayal Ayurvedic Yojana)
- (D) जललल डुडलडुधल डुऑनल (District Achievement Yojana)

79. Which of the following novels was written by Padma Shri Rongbong Terang?

- (A) *Mrityunjay*
- (B) *Oximot Jar Heral Xeema*
- (C) *Rongmilir Hanhi*
- (D) *Miri Jiyori*

79. নিম্নলিখিত কোনখন উপন্যাস পদ্মশ্রী বংবং তেবাঙে বচনা কৰিছে ?

- (A) মৃত্যুঞ্জয় (B) অসীমত যাব হেৰাল সীমা  
(C) বংমিলিৰ হাঁহি (D) মিৰি জীয়ৰী

79. নীচের কোন উপন্যাসটি পদ্মশ্রী বংবং তেবাং দ্বারা রচিত ?

- (A) মৃত্যুঞ্জয় (B) অসীমত যাব হেৰাল সীমা  
(C) বংমিলিৰ হাঁহি (D) মিৰি জীয়ৰী

79. गाहायनि बबे सल'माखौ पद्मश्री रंभं तेराडा लिरदोमोन?

- (A) मृत्युञ्जय (B) असीमत जार हेराल सीमा  
(C) रंमिलिर् हाँहि (D) मिर्ि जियरी

79. निम्नलिखित में से कौन-सा उपन्यास पद्मश्री रंगबंग तेरांग द्वारा लिखा गया?

- (A) मृत्युञ्जय (B) असीमत जार हेराल सीमा  
(C) रंमिलिर् हाँही (D) मिरी जियरी

80. Which of the following is **not** a Central Armed Police Force of India?

- (A) Indian Coast Guard (ICG)  
(B) Sashastra Seema Bal (SSB)  
(C) National Security Guard (NSG)  
(D) Central Industrial Security Force (CISF)

80. নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী নহয় ?

- (A) ভাৰতীয় উপকূল বক্ষকবাহিনী (ICG)  
(B) সশস্ত্ৰ সীমা বল (SSB)  
(C) ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা গাৰ্ড (NSG)  
(D) কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তাবাহিনী (CISF)

80. নীচের কোনটি ভারতের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নয় ?

- (A) ভারতীয় উপকূল রক্ষকবাহিনী (ICG)
- (B) সশস্ত্র সীমা বল (SSB)
- (C) রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা গার্ড (NSG)
- (D) কেন্দ্রীয় ঔদ্যোগিক নিরাপত্তাবাহিনী (CISF)

80. गाहायनि बबेया भारतनि मिरु हाथियारनां रैखाथि हान्जा नडा?

- (A) इन्दियान कष्ट गार्ड (ICG)
- (B) सशस्त्र सिमा बल (SSB)
- (C) नेशनेल सिक्किउरिटि गार्ड (NSG)
- (D) सेन्ट्रेल इन्दास्ट्रियेल सिक्किउरिटि फर्स (CISF)

80. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का केंद्रीय सशस्त्र आरक्षी बल नहीं है?

- (A) भारतीय तटरक्षक बल (ICG)
- (B) सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- (C) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
- (D) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

81. What is the chemical symbol for silver?

- (A) Ag
- (B) Si
- (C) Sv
- (D) Au

81. রূপৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি ?

- (A) Ag
- (B) Si
- (C) Sv
- (D) Au

81. रूपार ৰासायनिक प्रतीक की ?

- (A) Ag
- (B) Si
- (C) Sv
- (D) Au



81. रुफानि रासायनिक दिन्धिथिया मा?

- (A) Ag (B) Si  
(C) Sv (D) Au

81. चाँदी का रासायनिक चिह्न क्या है?

- (A) Ag (B) Si  
(C) Sv (D) Au

82. Who is the President of the USA, as on 1st of January, 2024?

- (A) Barack Obama (B) Donald Trump  
(C) Joe Biden (D) Rishi Sunak

82. 1 जनुराबी, 2024 सापेक्षे आमेबिका युञ्जबाष्ट्रब बाष्ट्रपति कोन ?

- (A) बाराक अ'बामा (B) डेनान्ड ट्राम्प  
(C) ज' बाइडेन (D) ऋषि सुनाक

82. 1 जनुयारी, 2024 सापेक्षे मार्किन युञ्जराष्ट्रब राष्ट्रपति के ?

- (A) बाराक ओबामा (B) डेनान्ड ट्राम्प  
(C) जो बाइडेन (D) ऋषि सुनाक

82. 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि खालिसिम आमेरिका जथाइ हादरनि हादोरगिरिया सोर?

- (A) बाराक अबामा (B) डनान्ड ट्रम्प  
(C) ज बाइडेन (D) रिशी सुनक

82. 1 जनवरी, 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है?

- (A) बराक ओबामा (B) डोनाल्ड ट्रम्प  
(C) जो बिडेन (D) ऋषि सुनक

83. Which of the following is considered as the powerhouse of an animal cell?

- (A) Nucleus (B) Golgi apparatus  
(C) Ribosome (D) Mitochondria

83. निम्नलिखित कोनटोक प्राणी कोषब शक्तिब उँबाल रूपे विबेचना करा ह्य ?

- (A) कोष केन्द्र (B) ग'लजि संघ  
(C) बाइब'ज'म (D) माइट'कण्ड्रिया

83. নীচের কোনটিকে প্রাণী কোষের শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় ?
- (A) নিউক্লিয়াস (B) গলজি বস্তু  
(C) রাইবোজোম (D) মাইটোকন্ড্রিয়া
83. गाहायनि बबेख्रौ जिबि जिबख्रियाव थानाय गोहोनि बाख्रि मुडै मिथिनाय जायो?
- (A) जिबख्रि मिह (B) गलजि गौथुम  
(C) राइब'जम (D) माइट'कन्ड्रिया
83. निम्नलिखित में से किसे पशु कोशिका का पावरहाउस माना जाता है?
- (A) केंद्रक (B) गोलजी तंत्र  
(C) राइबोसोम (D) माइटोकॉन्ड्रिया

---

84. Which of the following countries does **not** have a seashore?

- (A) China (B) Afghanistan  
(C) Myanmar (D) Iran
84. निम्नलिखित कोनखन देशत सागरीय उपकूल नाई ?
- (A) चीन (B) आफगानिस्तान  
(C) म्यानमार (D) ईराण
84. नীচের কোন্ দেশটির সমুদ্রতট নেই ?
- (A) चीन (B) आफगानिस्तान  
(C) म्यानमार (D) ईरान
84. गाहायनि बबे हादरहा लैथो सेर गैया?
- (A) चीन (B) आफगानिस्तान  
(C) म्यानमार (D) इरान
84. निम्नलिखित में से किस देश में समुद्रतट नहीं है?
- (A) चीन (B) अफगानिस्तान  
(C) म्यांमार (D) इरान

85. The world's largest island Greenland is a part of which of the following countries?  
(A) Denmark (B) Sweden  
(C) Canada (D) Iceland
85. পৃথিবীৰ বৃহত্তম দ্বীপ, গ্রীনলেণ্ড কোনখন দেশৰ অংশ ?  
(A) ডেনমাৰ্ক (B) চুইডেন  
(C) কানাডা (D) আইচলেণ্ড
85. বিশ্বৰ বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড কোন্ দেশৰ অংশ ?  
(A) ডেনমাৰ্ক (B) সুইডেন  
(C) কানাডা (D) আইসল্যান্ড
85. बुहुमनि देरसिन द्विप ग्रिनलेन्डा बबे हादोरनि बाहागो ?  
(A) डेनमार्क (B) सुइडेन  
(C) कानाडा (D) आइसलेन्ड
85. विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड, किस देश का भाग है ?  
(A) डेनमार्क (B) स्वीडन  
(C) कनाडा (D) आइसलैंड

- 
86. What was the last capital of Ahom Kingdom?  
(A) Charaideo (B) Jorhat  
(C) Rangpur (D) Garhgaon
86. আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰটো ৰাজধানী কি আছিল ?  
(A) চৰাইদেও (B) যোৰহাট  
(C) ৰংপুৰ (D) গড়গাঁও
86. আহোম ৰাজত্বৰ শেষ ৰাজধানী কোনটি ছিল ?  
(A) চৰাইদেও (B) যোৰহাট  
(C) ৰংপুৰ (D) গড়গাঁও
86. आहम राइजोनि जोबथा राजथावनिया बहामोन ?  
(A) चराइदेव (B) जरहात  
(C) रंपुर (D) गड़गाँव
86. अहोम साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन-सी थी ?  
(A) चराइदेउ (B) जोरहाट  
(C) रंगपुर (D) गढ़गाँव

87. What was the name of Srimanta Sankardeva's grandmother?

- (A) Aidew Aita (B) Jakoimoti  
(C) Kherxuti (D) Soirindhri

87. শ্রীমন্ত শংকৰদেৱৰ বুঢ়ী আইতাকৰ নাম কি আছিল ?

- (A) আইদেও আইতা (B) জাকৈমতি  
(C) খেৰসুতী (D) সৈৰিঙ্কী

87. শ্রীমন্ত শংকরदेवेर पितामहीर नाम की छिल ?

- (A) আইদেও আইতা (B) জাকৈমতি  
(C) খেৰসুতী (D) সৈৰিঙ্কী

87. श्रीमन्त शंकरदेवनि बिबैनि मुडा मामोन?

- (A) আয়দেব আইতা (B) জাকৈমতি  
(C) খেৰসুতি (D) সৈৰিঙ্কী

87. श्रीमन्त शंकरदेव की दादी का नाम क्या था?

- (A) আইদেও আইতা (B) জাকৌইমৌতী  
(C) খেৰসুতী (D) সৈৰিঙ্কী

88. Who was known as the 'Lion of Mysore'?

- (A) Adil Shah (B) Hyder Ali  
(C) Krishnaraja Wodeyar (D) Tipu Sultan

88. 'মহীশূৰৰ সিংহ'ৰূপে কোন জনাজাত আছিল ?

- (A) আদিল শ্বাহ (B) হাইদৰ আলি  
(C) কৃষ্ণৰাজা উদেয়াৰ (D) টিপু চুলতান

88. কে 'মহীশূৰেৰ সিংহ' বলে পরিচিত ছিলেন ?

- (A) আদিল শাহ (B) হায়দার আলী  
(C) কৃষ্ণৰাজা ওয়দেয়াৰ (D) টিপু সুলতান

88. सोर 'माइसरनि सिंह' होन्नानै मिथिजायोमोन?

- (A) আদিল শাহ (B) হাইদৰ আলী  
(C) কৃষ্ণৰাজা উদেয়াৰ (D) টিপু সুলতান

88. 'मैसूर के शेर' के नाम से किसे जाना जाता था?

- (A) आदिल शाह (B) हैदर अली  
(C) कृष्णराज वोडेयार (D) टीपू सुल्तान

89. Which State of India has Jallianwala Bagh?  
(A) Punjab (B) Haryana  
(C) Rajasthan (D) Uttar Pradesh
89. ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো ৰাজ্যত জালিয়ানৱালাবাগ স্থিত ?  
(A) পঞ্জাব (B) হাৰিয়ানা  
(C) ৰাজস্থান (D) উত্তৰ প্ৰদেশ
89. জালিয়ানওয়ালা বাগ ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?  
(A) পাঞ্জাব (B) হরিয়ানা  
(C) রাজস্থান (D) উত্তর প্ৰদেশ
89. জালিয়ানওয়ালা বাগা ভারতনি বৰে ৱাইজোআব দং?  
(A) পান্জাব (B) হাৰিয়ানা  
(C) ৰাজস্থান (D) উত্তৰ প্ৰদেশ
89. जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है?  
(A) पंजाब (B) हरियाणा  
(C) राजस्थान (D) उत्तर प्रदेश

- 
90. Which of the following countries was a part of the Axis Group during the World War II?  
(A) England (B) Japan  
(C) France (D) Soviet Union
90. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত নিম্নলিখিত কোনখন দেশ অক্ষ গোটৰ অংশীদাৰ আছিল ?  
(A) ইংলেণ্ড (B) জাপান  
(C) ফ্ৰান্স (D) ছোভিয়েট ইউনিয়ন
90. नीचेर देशगुलिर मध्ये कोनटि द्वितीय विश्वयुद्धेर समय अक्षशक्तिर अंश छिल ?  
(A) इंग्ल्यान्ड (B) जापान  
(C) फ्रान्स (D) सोवियेत संघ
90. नैथि मुलुग दावहानि समाव गाहायाव होनाय बबे हादरा एक्सिस हान्जानि बाहागोमोन?  
(A) इलेन्द (B) जापान  
(C) फ्रान्स (D) सभियेत इउनियन
90. निम्नलिखित में से कौन-सा देश द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान धुरी समूह का हिस्सा था?  
(A) इंग्लैंड (B) जापान  
(C) फ्रांस (D) सोवियत संघ

91. The ruins of Angkor Wat are in which country?

- (A) New Zealand (B) Indonesia  
(C) Vietnam (D) Cambodia

91. এংকৰ ৱাটৰ ধ্বংসাত্মকসমূহ কোনটো দেশৰ ?

- (A) নিউজিলেণ্ড (B) ইণ্ডোনেছিয়া  
(C) ভিয়েটনাম (D) কম্বোডিয়া

91. আঙ্কৰৱাট-এৰ ধ্বংসাত্মক কোন দেশে আছে ?

- (A) নিউজিল্যান্ড (B) ইন্দোনেশিয়া  
(C) ভিয়েতনাম (D) কম্বোডিয়া

91. আংকৰ ৱাটনি ৰায়খোন্দা ৰাহাগোআ ৰবে হাদৰাব দং?

- (A) নিউজিলেণ্ড (B) ইন্ড'নেছিয়া  
(C) ভিয়েতনাম (D) কম্ব'ডিয়া

91. अंगकोर वाट के खंडहर किस देश में हैं?

- (A) न्यूजीलैंड (B) इंडोनेशिया  
(C) वियतनाम (D) कंबोडिया

92. Which of the following countries does Assam share international borders with?

- (A) Bhutan and China  
(B) China and Bangladesh  
(C) Bangladesh and Bhutan  
(D) Myanmar and Bangladesh

92. নিম্নলিখিত কোনবোৰ দেশৰ সৈতে অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমান্তবেথা স্পৰ্শ কৰে ?

- (A) ভূটান আৰু চীন
- (B) চীন আৰু বাংলাদেশ
- (C) বাংলাদেশ আৰু ভূটান
- (D) ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশ

92. নীচের কোন্ দেশগুলি অসমের আন্তৰ্জাতিক সীমান্তবর্তী ?

- (A) ভূটান ও চীন
- (B) চীন ও বাংলাদেশ
- (C) বাংলাদেশ ও ভূটান
- (D) মায়ানমার ও বাংলাদেশ

92. আসামা বৰে হাদৌরজৌ হাযুংগেজেরারি সিমা রানলাযৌ?

- (A) ভূতান আরো চীন
- (B) চীন আরো বাংলাদেশ
- (C) বাংলাদেশ আরো ভূতান
- (D) ম্যানমার আরো বাংলাদেশ

92. অসম নিম্নলিখিত মৌ সে কিন দেশৌ কে সাথ অंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है?

- (A) भूटान और चीन
- (B) चीन और বাংলাদেশ
- (C) বাংলাদেশ और भूटान
- (D) म्यांमार और বাংলাদেশ

---

93. If an airplane is flying directly from Chennai towards Guwahati, in which direction is it flying?

- (A) From South to East
- (B) From East to West
- (C) From West to East
- (D) From North to East

93. যদি এখন বিমান চেম্বাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পোনো পোনো উৰি আহি আছে, তেন্তে বিমানখন কোনটো দিশলৈ উৰি আছে?
- (A) দক্ষিণৰ পৰা পূবলৈ  
(B) পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ  
(C) পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ  
(D) উত্তৰৰ পৰা পূবলৈ
93. যদি একটি বিমান চেম্বাই থেকে গুৱাহাটীৰ দিকে সরাসরি উড়ে যায়, তবে এটি কোনদিকে উড়ছে?
- (A) দক্ষিণ থেকে পূবদিকে  
(B) পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে  
(C) পশ্চিম থেকে পূবদিকে  
(D) উত্তর থেকে পূবদিকে
93. गंसे बिरख'डा जुदि चेन्नाइनिफ्राय गुवाहाटीसिम थोंजों बिरनानै फैदों, अब्ला बियो मा दिगाव बिरदों?
- (A) खोलानिफ्राय सानजार्थि  
(B) सानजानिफ्राय सोनाबर्थि  
(C) सोनाबनिफ्राय सानजार्थि  
(D) साहानिफ्राय सानजार्थि
93. यदि कोई हवाई जहाज चेन्नई से सीधे गुवाहाटी की ओर उड़ान भर रहा है, तो वह किस दिशा में उड़ान भर रहा है?
- (A) दक्षिण से पूर्व की ओर  
(B) पूर्व से पश्चिम की ओर  
(C) पश्चिम से पूर्व की ओर  
(D) उत्तर से पूर्व की ओर

---

94. What is the Westernmost State of India?

- (A) Rajasthan (B) Punjab  
(C) Maharashtra (D) Gujarat



94. ভাৰতৰ আটাইতকৈ পশ্চিমত থকা ৰাজ্য কোনখন ?

(A) ৰাজস্থান

(B) পঞ্জাব

(C) মহাৰাষ্ট্ৰ

(D) গুজৰাট

94. ভাৰতৰ পশ্চিমতম ৰাজ্য কোনটি ?

(A) ৰাজস্থান

(B) পাঞ্জাব

(C) মহাৰাষ্ট্ৰ

(D) গুজৰাট

94. ভাৰতৰ সোনাৰ জোৰখা ৰাজ্য কোনটো ?

(A) ৰাজস্থান

(B) পান্জাব

(C) মহাৰাষ্ট্ৰ

(D) গুজৰাট

94. ভাৰতৰ সৰ্বসৰ্ব পশ্চিমী ৰাজ্য কোনটো ?

(A) ৰাজস্থান

(B) পঞ্জাব

(C) মহাৰাষ্ট্ৰ

(D) গুজৰাট

95. Which of the following peaks does **not** belong to the Himalayas?

(A) Annapurna

(B) Kangto

(C) Anamudi

(D) Kamet

95. নিম্নলিখিত কোনটো শৃংগ হিমালয়ৰ অন্তৰ্গত নহয় ?

(A) অন্নপূৰ্ণা

(B) কাংটো

(C) আনামুদি

(D) কামেট

95. নীচৰ কোন শৃংগটি হিমালয়ৰ অন্তৰ্গত নহয় ?

(A) অন্নপূৰ্ণা

(B) কাংটো

(C) আনামুদি

(D) কামেট

95. गाहायनि बबे थिखिनिया हिमालयनि नडा?

- (A) अन्नपूर्णा (B) कांत'  
(C) अनामुदि (D) कामेट

95. निम्नलिखित में से कौन-सी चोटी हिमालय से संबंधित नहीं है?

- (A) अन्नपूर्णा (B) कांग्टो  
(C) अनामुदी (D) कामेट

96. The Great Barrier Reef is located in the seas near which continent?

- (A) North America (B) Australia  
(C) Africa (D) Europe

96. কোন মহাদেশৰ সমীপৰ সাগৰত বৃহৎ প্ৰবাল প্ৰাচীৰ অৱস্থিত ?

- (A) উত্তৰ আমেৰিকা (B) অষ্ট্ৰেলিয়া  
(C) আফ্ৰিকা (D) ইউৰোপ

96. বৃহৎ প্ৰবাল প্ৰাচীৰ (গ্ৰেট ব্যাৰিয়াৰ ৰিফ) কোন্ মহাদেশৰ নিকটবৰ্তী সমুদ্ৰে অৱস্থিত ?

- (A) উত্তৰ আমেৰিকা (B) অষ্ট্ৰেলিয়া  
(C) আফ্ৰিকা (D) ইউৰোপ

96. গ্ৰেট বৈৰিয়ৰ ৰিফা বব্বে হাদোৰমা খাথিনি লৈথোফোৱাৱ দং?

- (A) সা আমেৰিকা (B) অষ্ট্ৰেলিয়া  
(C) আফ্ৰিকা (D) ইউৰোপ

96. ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के निकट समुद्र में स्थित है?

- (A) उत्तरी अमेरिका (B) ऑस्ट्रेलिया  
(C) अफ्रीका (D) यूरोप

97. Which of the following is a mountain range of South America?

- (A) Andes (B) Karakoram  
(C) Alps (D) Caucasus

97. নিম্নলিখিত কোনটো দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এক পৰ্বতমালা ?

- (A) এণ্ডিজ (B) কাৰাকোৰাম  
(C) আল্পছ (D) ককেচাছ

97. নীচের কোনটি দক্ষিণ আমেৰিকাৰ একটি পৰ্বতমালা ?

- (A) আন্দিজ (B) কাৰাকোৰাম  
(C) আল্পস (D) ককেশাস

97. गाहायनि बबेया खोला आमेरिकानि हाजोमा फारि?

- (A) एन्डीस (B) काराकरम  
(C) एल्पस (D) ककेसास

97. निम्नलिखित में से कौन-सी दक्षिण अमेरिका की पर्वत शृंखला है?

- (A) एंडीज (B) काराकोरम  
(C) आल्प्स (D) काकेशस

98. The giant waves caused by volcanic eruptions or earthquakes under the sea are known as

- (A) tsunami (B) cyclone  
(C) blizzard (D) landslide

98. সাগৰৰ তলিত হোৱা আগ্নেয়গিৰি উদগীৰণ অথবা ভূমিকম্পই সৃষ্টি কৰা বৃহৎ ঢৌক কোৱা হয়

- (A) চুনামি (B) বা-মাৰলী  
(C) তুষাৰপাত (D) ভূমিস্থলন

98. সমুদ্রের নীচে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট মহাকায় তরঙ্গকে বলা হয়
- (A) সুনামি (B) ঘূর্ণিঝড়  
(C) তুষারঝড় (D) ভূমিস্থলন
98. লৈথো সিডাব অরণে মোखां बेरफुनायजों एबा बांग्रिमावनायजों सोमजिनाय गेदेर दोहौफोरखौ \_\_\_\_\_ बुडो।
- (A) सुनामि (B) बारमोदाइ  
(C) बरफ बारहुंखा (D) हा गिसिखानाय
98. समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल तरंगों को कहा जाता है
- (A) सुनामी (B) चक्रवात  
(C) बर्फानी तूफान (D) भूस्खलन

- 
99. Who is the Chairman of the Rajya Sabha?
- (A) The Prime Minister (B) The Vice President  
(C) The Speaker of the Lok Sabha (D) The President
99. राज्यासत्ताब अध्याक्ष कोन हय ?
- (A) प्रधानमन्त्री (B) उपराष्ट्रपति  
(C) लोकसत्ताब अध्याक्ष (D) राष्ट्रपति
99. राज्यासत्ताब अध्याक्ष के ?
- (A) प्रधानमन्त्री (B) उपराष्ट्रपति  
(C) लोकसत्ताब अध्याक्ष (D) राष्ट्रपति
99. राज्जो सभानि आफादगिरिया सोर?
- (A) गाहाइ मनथ्रि (B) लेडाइ हादोरगिरि  
(C) सुबुं आफादनि बुंथिगिरि (D) हादोरगिरि
99. राज्य सभा का अध्यक्ष कौन होता है?
- (A) प्रधान मंत्री (B) उपराष्ट्रपति  
(C) लोकसभा अध्यक्ष (D) राष्ट्रपति

100. Who administers the Oath of Office to the President of India?

- (A) The Prime Minister
- (B) The Chief Justice of the Delhi High Court
- (C) The Chief Justice of the Supreme Court
- (D) The Speaker of the Lok Sabha

100. ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে শপত পাঠ কৰোৱায় ?

- (A) প্ৰধানমন্ত্ৰী
- (B) দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ
- (C) উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ
- (D) লোকসভাৰ অধ্যক্ষ

100. কে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিকে শপতবাক্য পাঠ কৰান ?

- (A) প্ৰধানমন্ত্ৰী
- (B) দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধান বিচাৰপতি
- (C) উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধান বিচাৰপতি
- (D) লোকসভাৰ অধ্যক্ষ

100. भारतनि हादोरगिरिनो बिबान समायखिराखौ सोर लाहोयो?

- (A) गाहाइ मनथि
- (B) दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि गाहाइ बिसारगोरा
- (C) गोजौसिन बिजिरसालिनि गाहाइ बिसारगोरा
- (D) सुबुं आफादनि बुंथिगिरि

100. भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?

- (A) प्रधान मंत्री
- (B) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- (C) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- (D) लोकसभा अध्यक्ष

101. Which of the following musical instruments of Assam is usually made of bamboo?

- (A) Doba
- (B) Mridanga
- (C) Dotara
- (D) Toka

101. নিম্নলিখিত অসমৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ কোনটো সাধাৰণতে বাঁহেৰে নিৰ্মিত ?
- (A) দবা (B) মৃদংগ  
(C) দোতৰা (D) টকা
101. নীচে উल्लिखित असमेर कोन् ब्वाद्ययन्त्रटि साधारणत बाँश दिये तैरि ह्य ?
- (A) डबा (B) मृदङ्ग  
(C) दोतरा (D) टोका
101. गाहायाव होनाय आसामनि बबे दामजेंख्रौ औवाजौ बानायो?
- (A) दबा (B) मृदंग  
(C) दतारा (D) तका
101. निम्नलिखित में से असम का कौन-सा संगीत वाद्ययंत्र आमतौर पर बाँस से बना होता है?
- (A) डबा (B) मृदंग  
(C) दोतरा (D) टोका

- 
102. Where is the Tocklai Tea Research Centre located?
- (A) Jorhat (B) Lakhimpur  
(C) Tinsukia (D) Dhemaji
102. टोकलाई चाह गबेबषणा केन्द्र क'त अबस्थित ?
- (A) योबहार्ट (B) लखिमपुब  
(C) तिनिसुकिया (D) धेमाजि
102. टोकलाई चा गबेबषणा केन्द्र कोथाय अबस्थित ?
- (A) योरहार्ट (B) लखिमपुब  
(C) तिनसुकिया (D) धेमाजि
102. तकलाइ साहा नायबिजिर फसंथाना बबेयाव दं?
- (A) जरहात (B) लक्षीमपुब  
(C) तिनसुकिया (D) धेमाजि
102. टोकलाई चाय अनुसंधान केन्द्र कहाँ स्थित है?
- (A) जोरहाट (B) लखीमपुब  
(C) तिनसुकिया (D) धेमाजी

103. The Gita Press, a unit of Govind Bhawan Karyalaya, is located in which State?

- (A) Uttarakhand (B) Himachal Pradesh  
(C) Maharashtra (D) Uttar Pradesh

103. গোবিন্দ ভবন কার্যালয়ৰ এটা গোট গীতা প্ৰেছ, কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ?

- (A) উত্তৰাখণ্ড (B) হিমাচল প্ৰদেশ  
(C) মহাৰাষ্ট্ৰ (D) উত্তৰ প্ৰদেশ

103. গীতা প্ৰেস, গোবিন্দ ভবন কাৰ্যালয়ৰ একটা ভাগ, কোন্ ৰাজ্যে অৱস্থিত ?

- (A) উত্তৰাখণ্ড (B) হিমাচল প্ৰদেশ  
(C) মহাৰাষ্ট্ৰ (D) উত্তৰ প্ৰদেশ

103. गबिन्द भवन मावख'नि मोनसे खोन्दो गीता प्रेसा बबे राइजोआव दं?

- (A) उत्तराखण्ड (B) हिमाचल प्रदेश  
(C) महाराष्ट्र (D) उत्तर प्रदेश

103. गीता प्रेस, गोविंद भवन कार्यालय की एक इकाई, किस राज्य में स्थित है?

- (A) उत्तराखंड (B) हिमाचल प्रदेश  
(C) महाराष्ट्र (D) उत्तर प्रदेश

104. An hour during a day's session when questions/issues may be raised without prior notice in the Indian Parliament is called

- (A) Freedom Hour (B) Lunch Hour  
(C) Zero Hour (D) Party Hour

104. ভাৰতীয় সংসদত কোনো এটা দিনৰ অধিবেশনত আগতীয়া জাননী অবিহনে প্ৰশ্ন/বিষয় আদি উত্থাপন কৰিবৰ বাবে ধাৰ্য কৰি থোৱা এঘণ্টা সময়ক কি বুলি কোৱা হয় ?

- (A) স্বাধীন কাল (B) মধ্যাহ্নভোজন কাল  
(C) শূন্য কাল (D) দলীয় কাল

104. কোনো একটি দিনের অধিবেশন চলাকালীন একটি নির্দিষ্ট ঘণ্টায় যখন প্রশ্ন/বিষয়গুলি ভারতীয় সংসদে পূর্ব অবগতি ছাড়া উত্থাপিত হতে পারে, তাকে বলে

- (A) স্বাধীন কাল (B) মধ্যাহ্নভোজনের কাল  
(C) শূন্য কাল (D) দলগত কাল

104. भारतनि संसदाव सानसेनि जथुम्मनि घन्टासे सम जेब्ला जायखिजाया सोंथि/आयदाखौ सिगां मिथिहोआलाबानो थिखांनो हायो, बे समखौ मा बुडो?

(A) उदांसि सम

(B) सानजौफुनि आहार सम

(C) लाथिख' सम

(D) हान्जानि सम

104. भारतीय संसद में किसी एक दिन के सत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न/मुद्दे उठाए जा सकने वाले उस एक घंटे को कहा जाता है

(A) स्वतंत्र काल

(B) मध्याह्न-भोजन काल

(C) शून्य काल

(D) दलीय काल

105. Who is the Chairman of NITI Aayog?

(A) The Finance Minister

(B) The Prime Minister

(C) The Governor of the Reserve Bank of India

(D) The Vice President

105. नीति (NITI) आयोगर अध्याक्ष कोन ?

(A) वित्त मन्त्री

(B) प्रधानमन्त्री

(C) भारतीय रिजर्व बैंकक गरर्गर्

(D) उपराष्ट्रपति

105. नीति (NITI) आयोगेर अध्याक्ष के ?

(A) वित्त मन्त्री

(B) प्रधानमन्त्री

(C) भारतीय रिजर्व ब्याङ्केर गभर्नर

(D) उपराष्ट्रपति



105. नीति (NITI) आयोगनि आफादगिरिया सोर?

- (A) रां मनथ्रि
- (B) गाहाइ मनथ्रि
- (C) भारतनि रिजार्भ बैंकनि गभर्नर
- (D) लेडाइ हादोरगिरि

105. नीति (NITI) आयोग का अध्यक्ष कौन है?

- (A) वित्त मंत्री
- (B) प्रधान मंत्री
- (C) भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर
- (D) उपराष्ट्रपति

---

106. The Numaligarh Refinery is in which district of Assam?

- (A) Sivasagar
- (B) Jorhat
- (C) Golaghat
- (D) Dibrugarh

106. नुमलीगड़ शोधनागार असमर कोनखन जिलात अरखित ?

- (A) शिवसागर
- (B) योरहाट
- (C) गोलाघाट
- (D) डिब्रुगड़

106. नुमलीगड़ शोधनागार असमर कोन् जेलाय अवखित ?

- (A) शिवसागर
- (B) योरहाट
- (C) गोलाघाट
- (D) डिब्रुगड़

106. आसामनि नुमलिगड़ थाव सोदांसालिया बबे जिलायाव दं?

- (A) शिवसागर
- (B) जरहात
- (C) गलाघाट
- (D) डिब्रुगड़

106. नुमालीगड़ रिफाइनरी असम के किस जिले में स्थित है?

- (A) शिवसागर
- (B) जोरहाट
- (C) गोलाघाट
- (D) डिब्रुगड़

---

107. The international festival 'Kullu Dussehra' is celebrated in which State?

- (A) Himachal Pradesh
- (B) Uttarakhand
- (C) Uttar Pradesh
- (D) Haryana

107. আন্তর্জাতিক উৎসব 'কুল্লু দশেৰা' কোনখন ৰাজ্যত পালন কৰা হয় ?

- (A) হিমাচল প্ৰদেশ (B) উত্তৰাখণ্ড  
(C) উত্তৰ প্ৰদেশ (D) হাৰিয়ানা

107. আন্তর্জাতিক উৎসব 'কুল্লু দশেৰা' কোন ৰাজ্যে পালিত হয় ?

- (A) হিমাচল প্ৰদেশ (B) উত্তৰাখণ্ড  
(C) উত্তৰ প্ৰদেশ (D) হাৰিয়ানা

107. হাংগেজিৰাৰি ফোৰবো 'কুল্লু দশেৰা'খী বৰে ৰাইজোআব ফালিনায় জায়ো?

- (A) হিমাচল প্ৰদেশ (B) উত্তৰাখণ্ড  
(C) উত্তৰ প্ৰদেশ (D) হাৰিয়ানা

107. অন্তর্জাতিক ত্যোহাৰ 'কুল্লু দশেৰা' কিস ৰাজ্য মেঁ মনায় জাতা হৈ?

- (A) হিমাচল প্ৰদেশ (B) উত্তৰাখণ্ড  
(C) উত্তৰ প্ৰদেশ (D) হাৰিয়ানা

108. The Bering Strait separates which two landmasses?

- (A) Australia and New Zealand (B) The USA and Russia  
(C) South Africa and Madagascar (D) Japan and China

108. বেৰিং প্ৰণালীয়ে কোন দুটা ভূখণ্ডক পৃথক কৰে ?

- (A) অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ড (B) আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাছিয়া  
(C) দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু মাৰাগাস্কাৰ (D) জাপান আৰু চীন

108. বেৰিং প্ৰণালী কোন দুটি স্থলভাগকে পৃথক কৰে ?

- (A) অষ্ট্ৰেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড (B) মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ও ৰাশিয়া  
(C) দক্ষিণ আফ্ৰিকা ও মাৰাগাস্কাৰ (D) জাপান ও চীন

108. বেৰিং হা-সুজাৰা বৰে মননৈ হা-খোন্দোখী বোখাবো?

- (A) অষ্ট্ৰেলিয়া আৰো নিউজিলেণ্ড (B) ইউ.এস.এ. আৰো ৰাশিয়া  
(C) খোলা আফ্ৰিকা আৰো মাৰাগাস্কাৰ (D) জাপান আৰো চীন

108. बेरिंग जलसन्धि किन दो भू-भागों को अलग करती है?

- (A) ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (B) संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस  
(C) दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर (D) जापान और चीन

109. Who wrote the lyrics of 'Alakananda', sung by Shankuraj Konwar?

- (A) Tonmoy Krypton (B) Sannidhya Bhuyan  
(C) Joi Barua (D) Maitrayee Patar

109. শংকুৰাজ কোঁৱৰে গোৱা 'অলকানন্দা' গীতটিৰ গীতিকাৰ কোন ?

- (A) তন্ময় ক্ৰিপ্তন (B) সান্নিধ্য ভূঞা  
(C) জয় বৰুৱা (D) মৈত্ৰেয়ী পাটৰ

109. শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰেৰ গাওয়া 'অলকানন্দা' গান কে লিখেছেন ?

- (A) তন্ময় ক্ৰিপ্তন (B) সান্নিধ্য ভূঞা  
(C) জয় বৰুৱা (D) মৈত্ৰেয়ী পাটৰ

109. शंकराज कोँवर खननाय 'अलकानन्दा' मेथाइनि सुजुगिरिया सोर?

- (A) तन्मय क्निप्तन (B) सान्निध्य भुजा  
(C) जय बरुवा (D) मैत्रेयी पाटर

109. शंकराज कोँवर द्वारा गाए गए 'अलकानन्दा' गीत किसने लिखे?

- (A) तन्मय क्निप्तन (B) सान्निध्य भुयां  
(C) जय बरुआ (D) मैत्रेयी पाटर

110. The real name of crime thriller writer Ranju Hazarika is

- (A) Satyanath Bora (B) Pabitra Kumar Deka  
(C) Hiren Gohain (D) Kumud Chandra Hazarika

110. অপৰাধমূলক ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী লেখক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ আচল নাম কি ?

- (A) সত্যনাথ বৰা (B) পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা  
(C) হীৰেন গোহাঁই (D) কুমুদ চন্দ্ৰ হাজৰিকা

110. অপরাধমূলক রোমাঞ্চকৰ কাহিনী লেখক ৰঞ্জু হাজাৰিকাৰ প্ৰকৃত নাম কী ?

- (A) সত্যনাথ বৰা (B) পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা  
(C) হীৰেন গোহাঁই (D) কুমুদ চন্দ্ৰ হাজাৰিকা

110. ক্ৰাইম থ্ৰিলৰ লিৰগ্ৰা ৰন্জু হাজ'ৰিকানি থাৰ মুডা মা?

- (A) সত্যনাথ বৰা (B) পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা  
(C) হীৰেন গোহাঁই (D) কুমুদ চন্দ্ৰ হাজ'ৰিকা

110. ক্ৰাইম থ্ৰিলৰ লেখক ৰঞ্জু হাজাৰিকা কা অসলী নাম হৈ

- (A) সত্যনাথ বৰা (B) পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা  
(C) হীৰেন গোহাঁই (D) কুমুদ চন্দ্ৰ হাজাৰিকা

111. Who wrote the children's book *Xanta-Xista Hrista-Pusta Mahadusto*?

- (A) Nabakanta Barua (B) Hiren Bhattacharyya  
(C) Bhabendra Nath Saikia (D) Arup Kumar Dutta

111. 'শান্তশিষ্ট হস্তপুষ্ট মহাদুষ্ট' নামৰ শিশু পুথিখন কোনে লিখিছিল ?

- (A) নৰকান্ত বৰুৱা (B) হীৰেন ভট্টাচাৰ্য  
(C) ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া (D) অক্ষয় কুমাৰ দত্ত

111. ছোটদের পুস্তক 'শান্তশিষ্ট হস্তপুষ্ট মহাদুষ্ট' কৰ লেখা ?

- (A) নৰকান্ত বৰুৱা (B) হীৰেন ভট্টাচাৰ্য  
(C) ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া (D) অক্ষয় কুমাৰ দত্ত

111. गथ'साफोरनि बिजाब 'शान्त-शिस्त हस्त-पुस्त महादुस्त'खौ सोर लिरदों?

- (A) नरकान्त बरुवा (B) हिरन भट्टाचार्य  
(C) भवेन्द्रनाथ सइकिया (D) अरुप कुमार दत्त

111. बच्चों की पुस्तक, 'शांतशिष्ट हृष्टपुष्ट महादुष्ट' किसने लिखी?

- (A) नवकांत बरुआ (B) हिरेन भट्टाचार्य  
(C) भर्बेद्र नाथ सैकिया (D) अरूप कुमार दत्त
- 

112. Kanchipuram Saree is produced in which State?

- (A) Kerala (B) Tamil Nadu  
(C) Karnataka (D) Telangana

112. काष्मिपुबम शाडी कौनखन बाज्यत उंपादन कबा ह्य ?

- (A) केबाला (B) तामिलनाडु  
(C) कर्णाटक (D) तेलेंगाना

112. काष्मिपुबम शाडी कौन राज्जे उंपादित ह्य ?

- (A) केराला (B) तामिलनाडु  
(C) कर्णाटक (D) तेलेंगाना

112. कान्चिपुरम सारिखौ बबे राइजोआव दिहुनो?

- (A) केराला (B) तामिलनाडु  
(C) कर्णाटक (D) तेलंगाना

112. कांचीपुरम साडी का उत्पादन किस राज्य में होता है?

- (A) केरल (B) तामिलनाडु  
(C) कर्णाटक (D) तेलंगाना
- 

113. Who among the following was a famous painter?

- (A) Vincent van Gogh (B) John Lennon  
(C) Bob Marley (D) Marlon Brando

113. निम्नलिखित कौनगबाकी एजन विख्यात चिब्रकब आछिल ?

- (A) विन्सेन्ट वेन ग'ग (B) जन लेनन  
(C) ब'ब मार्ले (D) मार्लो ब्रान्डो

113. নীচের কে একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন ?

- (A) ভিনসেন্ট ভ্যান গগ (B) জন লেনন  
(C) বব মার্লে (D) মার্লোন ব্র্যাভো

113. गाहायाव होनाय सोर सासेया मुंदांखा सावगारि आखिग्रामोन?

- (A) भिनसेन्ट भेन गग (B) जन लेनन  
(C) बब मार्ले (D) मार्लन ब्रान्ड'

113. निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार था?

- (A) विसेंट वैन गॉग (B) जॉन लेनन  
(C) बॉब मार्ले (D) मार्लन ब्रैंडो

114. In which sport do Tania Choudhury and Nayanmoni Saikia from Assam represent India?

- (A) Lawn Bowls (B) Badminton  
(C) Carrom (D) Judo

114. অসমৰ তানিয়া চৌধুৰী আৰু নয়নমণি শইকীয়াই কোনবিধ খেলত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ?

- (A) ল'ন ব'ল (B) বেডমিণ্টন  
(C) কেৰ'ম (D) জুডো

114. অসমের তানিয়া চৌধুরী এবং নয়নমণি শইকীয়া কোন খেলায় ভারতের প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ?

- (A) লন বল (B) ব্যাডমিণ্টন  
(C) ক্যারাম (D) জুডো

114. आसामनि तानिया चौधुरी आरो नयनमनि सइकियाया भारतनि जानानै मा गेलेयो?

- (A) लन बल (B) बेडमिन्टन  
(C) केरम (D) जुद'

114. असम की तानिया चौधरी और नयनमोनी सैकिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं?

- (A) लॉन बॉल (B) बैडमिंटन  
(C) कैरम (D) जूडो

115. Identify the Badminton player.

- (A) Dipa Karmakar (B) Pullela Gopichand  
(C) Sania Mirza (D) Leander Paes

115. बेडमिन्टन खेलुबैगबाकीक चिनाङ्क कबक ।

- (A) दीपा कर्मकार (B) पुल्लेला गोपीचन्द  
(C) छानिया मिर्जा (D) लियेण्डर पेज

115. ब्याडमिन्टन खेलोयाङ्के चिह्नित करुन ।

- (A) दीपा कर्मकार (B) पुल्लेला गोपीचन्द  
(C) सानिया मिर्जा (D) लियेण्डर पेज

115. बेडमिन्टन गेलेग्राखौ सिनायथि।

- (A) दीपा कर्मकार (B) पुलेला गोपिचन्द  
(C) सानिया मिर्जा (D) लियेन्दर पेस

115. बैडमिंटन खिलाड़ी को पहचानिए।

- (A) दीपा कर्मकार (B) पुलेला गोपीचंद  
(C) सानिया मिर्जा (D) लिण्डर पेस

116. In which sport did India **not** win a medal at 2020 Tokyo Olympics?

- (A) Boxing (B) Weightlifting  
(C) Taekwondo (D) Wrestling

116. 2020 टोकियो' अलिम्पिकत डारते कानविध खेलत कानो पदक लाड कबा नाछिल ?

- (A) मुष्टियुद्ध (B) डारोडोलन  
(C) टाईकोराञ्छे (D) मल्लयुद्ध

116. 2020 টোকিও অলিম্পিকে ভারত কোন্ খেলায় পদক জেতেনি ?  
(A) মুষ্টিযুদ্ধ (B) ভারোত্তোলন  
(C) টায়কোয়ান্দো (D) কুস্তি
116. 2020 মাঘথাইনি টকিঅ অলিম্পিক বাদায়লায়নায়াব ভারতা ববে গেলেনায়াব মেডেল মোনাখৈ?  
(A) সৌলায়নায (B) গিলির দৈখানায  
(C) তাইকবান্দ' (D) খমলায়নায
116. ভারত নে 2020 টোক্যো অোলম্পিক মেঁ কিস খেল মেঁ পদক নহীঁ জীতা?  
(A) মুক্কেবাজী (B) ভারোত্তোলন  
(C) তাইকবান্দো (D) কুশতী

- 
117. The Diamond League is an annual series of competitions in which area?  
(A) Swimming (B) Badminton  
(C) Gymnastics (D) Track and Field Events
117. বাৰ্ষিক প্রতিযোগিতাৰ শৃংখলা ডায়ম'ণ্ড লীগ কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত ?  
(A) সাঁতোৰ (B) বেডমিন্টন  
(C) জিমনাষ্টিক্স (D) ট্ৰেক আৰু ফিল্ডৰ খেল
117. বাৰ্ষিক প্রতিযোগিতাৰ শৃংখলা ডায়মন্ড লিগ কোন্ খেলাৰ সঙ্গে যুক্ত ?  
(A) সাঁতার (B) ব্যাডমিন্টন  
(C) জিমন্যাস্টিক্স (D) ট্ৰ্যাক এবং ফিল্ডের খেলা
117. মোনসে বোসোরারি বাদায়লায়নায়াব ফারি ডায়মন্ড লিগা ববে গেলেনায়াজোঁ সোমোন্দো গোনাং?  
(A) সানসিনায (B) বেডমিন্টন  
(C) জিমনেষ্টিক (D) ট্ৰেক আরো ফোথারাव गेलेग्रा आयदा
117. डायमंड लीग किस खेल मेँ प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक शृंखला है?  
(A) तैराकी (B) बैडमिंटन  
(C) जिमनास्टिक्स (D) ट्रैक और फील्ड खेल

- 
118. Identify the incorrectly matched pair.  
(A) Stefan Edberg : Cricket (B) Björn Borg : Lawn Tennis  
(C) Tiger Woods : Golf (D) Cristiano Ronaldo : Football



118. অশুদ্ধকৈ বজিতা খুওৱা যোবটো চিনাক্ত কৰক।

(A) ষ্টিফেন এডবাৰ্গ : ক্ৰিকেট

(B) বিয়ন ব'ৰ্গ : ল'ন টেনিছ

(C) টাইগাৰ উড্ছ : গল্ফ

(D) ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো : ফুটবল

118. ভুলভাৱে মেলানো জোড়াটি চিহ্নিত কৰুন।

(A) স্টিফান এডবাৰ্গ : ক্ৰিকেট

(B) বিয়ন ব'ৰ্গ : লন টেনিস

(C) টাইগাৰ উড্ছ : গল্ফ

(D) ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো : ফুটবল

118. গোরোন্থিযৈ বসায়নাথ জৱাখৌ সিনায়।

(A) স্টিফেন এডবাৰ্গ : ক্ৰিকেট

(B) ব্যৰ্ন ব'ৰ্গ : লন টেনিস

(C) টাইগাৰ উড্ছ : গল্ফ

(D) ক্ৰিষ্টিয়ান' ৰোনাল্ড' : ফুটবল

118. গলত সুমেলিত জোড়ী কো পহচানিএ।

(A) স্টিফান এডবাৰ্গ : ক্ৰিকেট

(B) ব্যৰ্ন ব'ৰ্গ : ল'ন টেনিস

(C) টাইগাৰ উড্ছ : গল্ফ

(D) ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো : ফুটবল

119. Where is the National War Memorial located?

(A) Srinagar

(B) New Delhi

(C) Tawang

(D) Amritsar

119. ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধটি ক'ত অৱস্থিত?

(A) শ্ৰীনগৰ

(B) নতুন দিল্লী

(C) টাৱাং

(D) অমৃতসৰ

119. ৰাষ্ট্ৰীয় সমৰ স্মাৰক কোথায় অবস্থিত?

(A) শ্ৰীনগৰ

(B) নতুন দিল্লী

(C) তাওয়াং

(D) অমৃতসৰ

119. नेशनल वार मेम'रियेला बहा दं?

- (A) श्रीनगर (B) गोदान दिल्ली  
(C) तावां (D) अमृतसर

119. 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' कहाँ स्थित है?

- (A) श्रीनगर (B) नई दिल्ली  
(C) तवांग (D) अमृतसर

120. Which of the following is the Mission Basundhara of the Government of Assam related to?

- (A) Fishery and livelihood  
(B) Women empowerment  
(C) Land records and land revenues  
(D) Digital education

120. निम्नलिखित कोनटोब सैते असम चबकाबब मिछन वसुधरा सम्पर्कित ?

- (A) मत्स्यपालन आरु जीरिका  
(B) महिला सबलीकरण  
(C) भूमिलेख्य आरु भूमि बाजह  
(D) डिजिटेल शिक्षा

120. नीचेर कोनटिब सङ्गे असम सरकारेर वसुधरा प्रकल्प जडित ?

- (A) मत्स्यपालन ओ जीरिका  
(B) नारी सबलीकरण  
(C) भूमि दलिल ओ भूमि राजस्व  
(D) डिजिटल शिक्षा

120. आसाम सरखारनि मिशन बसुन्धराया गाहायनि मार्जो सोमोन्दो दं?

- (A) ना फुख्रि आरो जिउ राहा  
(B) आइजो गोख्रो खालामनाय  
(C) हा-रेबगान्थि आरो हा-खाजोना  
(D) डिजिटेल सोलोथाइ

120. असम सरकार का मिशन बसुंधरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

- (A) मत्स्यपालन और आजीविका
- (B) महिला सशक्तिकरण
- (C) भूमि अभिलेख और भूमि राजस्व
- (D) डिजिटल शिक्षा

121. Which of the following organizations is **not** in the business of commercial vehicles?

- (A) Larsen & Toubro
- (B) Mahindra & Mahindra
- (C) Force Motors
- (D) Tata Motors

121. निम्नलिखित কোনটো প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক বাহনৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নহয় ?

- (A) লার্ভেচেন এণ্ড টুৰ'
- (B) মহিন্দ্র এণ্ড মহিন্দ্র
- (C) ফ'ৰ্স মটৰছ
- (D) টাটা মটৰছ

121. নীচের কোন প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক যানবাহনের ব্যবসায় যুক্ত নয় ?

- (A) লারসেন অ্যান্ড টুৰো
- (B) মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা
- (C) ফোর্স মোটরস্
- (D) টাটা মোটরস্

121. गाहायनि बबे फसंथाना फालांगियारि मथर गारिनि नडा?

- (A) लार्सन एन्ड टुब्र'
- (B) महिन्द्र एन्ड महिन्द्र
- (C) फर्स मटर्स
- (D) टाटा मटर्स

121. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन वाणिज्यिक वाहनों के व्यवसाय में नहीं है?

- (A) लार्सन ऐन्ड टुब्रो
- (B) महिन्द्रा ऐन्ड महिन्द्रा
- (C) फोर्स मोटर्स
- (D) टाटा मोटर्स

122. If the pH of a liquid is 5.0, then the liquid is

- (A) alkaline in nature
- (B) neutral in nature
- (C) liquid metal
- (D) acidic in nature

122. কোনো তৰল পদাৰ্থৰ pH মান 5.0 হ'লে, সেই তৰল পদাৰ্থবিধ

- (A) খাৰকীয় প্ৰকৃতিৰ
- (B) প্ৰশমিত প্ৰকৃতিৰ
- (C) তৰল ধাতু
- (D) আম্লিক প্ৰকৃতিৰ

122. একটি তরলের পি. এইচ. (pH) 5.0 হলে, সেই তরলটি  
(A) ক্ষার প্রকৃতির (B) নিরপেক্ষ প্রকৃতির  
(C) তরল ধাতু (D) অম্ল প্রকৃতির
122. জুদি মোনসে লাবলাবনি pHআ 5.0, অব্লা বে লাবলাবা  
(A) খ্বারদৈ আখ্বুনি (B) দব্র'  
(C) দৈলাব ধাতু (D) এসিড আখ্বুনি
122. जब किसी द्रव का पी० एच० (pH) मान 5.0 है, तो वह द्रव है  
(A) प्रकृति में क्षारीय (B) प्रकृति में तटस्थ  
(C) तरल धातु (D) प्रकृति में अम्लीय

- 
123. Who is the Vice President of India, as on 1st of January, 2024?  
(A) Gulab Chand Kataria (B) Ram Nath Kovind  
(C) Jagdeep Dhankhar (D) Rajnath Singh
123. 1 জানুয়ারী, 2024 সাপেক্ষে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কোন ?  
(A) গুলাব চন্দ কটারিয়া (B) রাম নাথ কোবিন্দ  
(C) জগদীপ ধনখড় (D) রাজনাথ সিং
123. 1 জানুয়ারী, 2024 সাপেক্ষে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কে ?  
(A) গোলাপ চাঁদ কটারিয়া (B) রাম নাথ কোবিন্দ  
(C) জগদীপ ধনখড় (D) রাজনাথ সিংহ
123. 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि खालिसिमाव भारतनि लेडाइ हादोरगिरिया सोर?  
(A) गुलाब चन्द कटारिया (B) राम नाथ कविन्द  
(C) जगदीप धनकर (D) राजनाथ सिंह
123. 1 जनवरी, 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं?  
(A) गुलाब चंद कटारिया (B) राम नाथ कोविन्द  
(C) जगदीप धनखड़ (D) राजनाथ सिंह

- 
124. Which of the following belongs to Class I category of lever?  
(A) Scissor (B) Wheelbarrow  
(C) Human arm (D) Stapler

124. নিম্নলিখিত কোনটো প্রথম শ্রেণীৰ লিভাৰৰ অন্তৰ্গত ?  
(A) কেঁচী (B) ঠেলা গাড়ী  
(C) মানৱ বাহু (D) ষ্টেপলাৰ
124. নীচের কোনটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের অন্তর্গত ?  
(A) কাঁচি (B) ঠেলাগাড়ি  
(C) মানুষের হাত (D) স্ট্যাপলার
124. गाहायनि बबे मोनसेया थाखो I लिबारनि बिदिन्धि?  
(A) खेमसि (B) थेला गारि  
(C) मानसिनि आखान्धि (D) स्टेपलार
124. निम्नलिखित में से कौन-सा लीवर की कक्षा I श्रेणी से संबंधित है?  
(A) कैची (B) ठेला  
(C) मानव भुजा (D) स्टेपलर

- 
125. The National Flag of which country has a white cross over red background?  
(A) Brazil (B) Switzerland  
(C) The United States of America (D) Japan
125. কোন দেশৰ জাতীয় পতাকাত বঙা পৃষ্ঠভূমিত বগা বঙৰ এটা ক্ৰছ চিহ্ন আছে ?  
(A) ব্ৰাজিল (B) চুইজাৰলেণ্ড  
(C) আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ (D) জাপান
125. কোন দেশের জাতীয় পতাকায় লাল পটভূমিতে একটি সাদা ক্রস আছে ?  
(A) ব্ৰাজিল (B) সুইজাৰল্যান্ড  
(C) মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ (D) জাপান
125. बबे हादोरनि फिरफिलायाव गोजा गाबनि सायाव गुफुर क्रस दं?  
(A) ब्राजिल (B) सुइजारलेण्ड  
(C) आमेरिका जथाइ हादर (D) जापान
125. किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में लाल पृष्ठभूमि पर एक सफेद क्रॉस है?  
(A) ब्राज़ील (B) स्विट्ज़रलैंड  
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका (D) जापान

126. Which of the following is considered as the earliest compilation?

- (A) *Yajurveda* (B) *Atharvaveda*  
(C) *Rigveda* (D) *Samaveda*

126. নিম্নলিখিত কোনটোক আটাইতকৈ পুৰণি সংকলন বুলি বিবেচনা কৰা হয় ?

- (A) 'যজুৰ্বেদ' (B) 'অথৰ্ববেদ'  
(C) 'ঋগ্বেদ' (D) 'সামবেদ'

126. নীচের কোনটিকে প্রাচীনতম সংকলন হিসেবে বিবেচনা করা হয় ?

- (A) 'যজুৰ্বেদ' (B) 'অথৰ্ববেদ'  
(C) 'ঋগ্বেদ' (D) 'সামবেদ'

126. गाहायनि बबेखौ बयनिखुइ गिबिसिन बुथुमनानै लिरनाय बिजाब होननानै बुडो?

- (A) 'यजुर्बेद' (B) 'अथर्वबेद'  
(C) 'रिग्बेद' (D) 'सामबेद'

126. निम्नलिखित में से किसे सबसे पहला संकलन माना जाता है?

- (A) 'यजुर्वेद' (B) 'अथर्ववेद'  
(C) 'ऋग्वेद' (D) 'सामवेद'

127. Which of the following places was a part of the Indus Valley Civilization?

- (A) Machilipatnam (B) Babylon  
(C) Mohenjo-daro (D) Byzantine

127. निम्नलिखित কোনটো স্থান সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ অন্তৰ্গত ?

- (A) মছলিপটনম (B) বেবিলন  
(C) মহেঞ্জোদারো (D) বাইজেন্টাইন

127. निम्ने उल्लिखित कौन स्थान सिन्धु उपत्यका सभ्यताৰ अंश छिल ?

- (A) माछलिपतनम (B) ब्याबिलन  
(C) महेंजोदारो (D) बाईजेंटाईन

127. गाहायनि बबे जायगाया सिन्धु हायेननि सोदोमसिनि बाहागोमोन?

- (A) मछलीपत्तनम (B) बेबिल'न  
(C) महेनज'दार' (D) बिजान्टिन

127. निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था?

- (A) मछलीपट्टनम (B) बेबीलोन  
(C) मोहनजोदड़ो (D) बीजान्टिन

128. Who among the following was involved in the Battle of Waterloo?

- (A) Napoleon Bonaparte (B) Czar Nicholas  
(C) Adolf Hitler (D) George Washington

128. বাটাৰলু যুদ্ধত নিম্নলিখিত কোনগৰাকী জড়িত আছিল ?

- (A) নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট (B) নিকোলাচ জাৰ  
(C) এডল্ফ হিটলাৰ (D) জৰ্জ ৱাশ্বিংটন

128. নীচে উल्लिखितदर मध्ये के ग्युटारलु युद्धे जड़ित छिलेन ?

- (A) नेपोलियन बोनार्पार्ट (B) जार निकोलास  
(C) एडल्फ हिटलार (D) जर्ज ग्युशिंग्टन

128. गाहायाव होनाय सोर सासेया वाटारलुनि दावहार्जो लोब्बा दं?

- (A) नेप'लियन बनापार्ट (B) जार निक'लास  
(C) एडल्फ हिटलार (D) जर्ज वाशिंगटन

128. 'वाटरलू की लड़ाई' में निम्नलिखित में से कौन शामिल था?

- (A) नेपोलियन बोनापार्ट (B) जार निकोलस  
(C) एडॉल्फ हिटलर (D) जॉर्ज वाशिंगटन

129. Bhairabkunda is a trijunction of which of the following?

- (A) Assam, Bhutan, China  
(B) Assam, Bhutan, Arunachal Pradesh  
(C) Assam, Bhutan, Sikkim  
(D) Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh

129. ভৈৰৱকুণ্ড নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পৰ ত্ৰিসংযোগী স্থান ?

- (A) অসম, ভূটান, চীন  
(B) অসম, ভূটান, অৰুণাচল প্ৰদেশ  
(C) অসম, ভূটান, চিক্কিম  
(D) অসম, চিক্কিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ

129. নীচের কোন্ তিনটি স্থানের সংযোগস্থল ভৈরবকুণ্ড ?

- (A) অসম, ভূটান, চীন
- (B) অসম, ভূটান, অৰুণাচল প্ৰদেশ
- (C) অসম, ভূটান, সিক্কিম
- (D) অসম, সিক্কিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ

129. ঐরবকুন্দবা গাহায়নি ববে দাৰ্থাম জায়গাফোরনি গোরোবনায় জায়গা?

- (A) আসাম, ভূতান, চীন
- (B) আসাম, ভূতান, অৰুণাচল প্ৰদেশ
- (C) আসাম, ভূতান, সিক্কিম
- (D) আসাম, সিক্কিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ

129. ঐরবকুণ্ড নিম্নলিখিত মেন্ সে কিসকা ত্ৰিজংশান হৈ?

- (A) অসম, ভূটান, চীন
- (B) অসম, ভূটান, অৰুণাচল প্ৰদেশ
- (C) অসম, ভূটান, সিক্কিম
- (D) অসম, সিক্কিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ

130. Which of the following is generally salty in taste?

- (A) Snowflake
- (B) Rainwater
- (C) Flowing river water
- (D) Seawater

130. নিম্নলিখিত কোনবিধৰ সোৱাদ সচৰাচৰ লুণীয়া ?

- (A) তুষাৰকণা
- (B) বৰষুণৰ পানী
- (C) বোৱতী নদীৰ পানী
- (D) সাগৰীয় পানী

130. নীচের কোনটি সাধাৰণত স্বাদে লবণাক্ত ?

- (A) তুষাৰকণা
- (B) বৃষ্টিৰ জল
- (C) প্ৰবাহিত নদীৰ জল
- (D) সাগৰেৰ জল

130. গাহায়নি ববেয়া সৱাসনস্মায়ৈ গোৱাৰ?

- (A) বৰফ-গুন্দ্ৰা
- (B) অখা-হাদৈ
- (C) বোহৈনায় দৈমানি দৈ
- (D) লৈথোনি দৈ

130. निम्ललिखित मैन से कौन-सा स्वाद मैन सामान्यतः नमकीन होता है?

- (A) हिमकण
- (B) बारिश का पानी
- (C) बहती नदी का पानी
- (D) समुद्र का पानी



131. Which option is similar to Pencil : Student : School?

- (A) Mouse : Eat : Biscuit (B) Computer : Officer : Bank  
(C) Pen : Writer : Book (D) Cash : Shopkeeper : Goods

131. কোনটো বিকল্প পেঞ্চিল : শিক্ষার্থী : বিদ্যালয় সম্বন্ধৰ সদৃশ ?

- (A) নিগনি : ভক্ষণ : বিস্কুট (B) কম্পিউটাৰ : বিষয়া : বেংক  
(C) কলম : লেখক : কিতাপ (D) নগদ : দোকানী : সামগ্ৰী

131. কোন বিকল্পটি পেন্সিল : ছাত্র : বিদ্যালয়-এর অনুরূপ ?

- (A) ইঁদূর : ভক্ষণ : বিস্কুট (B) কম্পিউটার : আধিকারিক : ব্যাঙ্ক  
(C) কলম : লেখক : বই (D) নগদ : দোকানদার : পণ্য

131. बबे फिना पेन्सिल : फरायसा : फरायसालि जों समान?

- (A) एनजर : जा : बिस्कूट (B) कमप्युटर : मावख'गिरि : बैंक  
(C) रेबगन : लिरगिरि : बिजाब (D) नगद रां : गलादार : बेसाद

131. कौन-सा विकल्प पेंसिल : छात्र : स्कूल के समान है?

- (A) चूहा : खाना : बिस्किट (B) कंप्यूटर : अधिकारी : बैंक  
(C) कलम : लेखक : किताब (D) नकद : दुकानदार : सामान

132. If REAR = 42, TEAR = 44 and DEAR = 28, then which of the following sets is incorrectly paired?

- (A) PEAR = 40 (B) FEAR = 32  
(C) BEAR = 26 (D) GEAR = 31

132. যদি REAR = 42, TEAR = 44 আৰু DEAR = 28, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো যোৰ অশুদ্ধ ?

- (A) PEAR = 40 (B) FEAR = 32  
(C) BEAR = 26 (D) GEAR = 31

132. যদি REAR = 42, TEAR = 44 এবং DEAR = 28 হয়, তবে नीचेर कोनटि डूल जोड़ा ?

- (A) PEAR = 40 (B) FEAR = 32  
(C) BEAR = 26 (D) GEAR = 31

132. जुदि REAR = 42, TEAR = 44 आरो DEAR = 28, अब्ला गाहायनि बवे जराया बेज'रा जादों?

- (A) PEAR = 40 (B) FEAR = 32  
(C) BEAR = 26 (D) GEAR = 31

132. यदि REAR = 42, TEAR = 44 और DEAR = 28, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सेट गलत तरीके से जोड़ा गया है?

- (A) PEAR = 40 (B) FEAR = 32  
(C) BEAR = 26 (D) GEAR = 31

133. Find the best option to fill in the last term :

CIRCLE : GEOMETRY :: POETRY : ?

- (A) CHAPTER (B) BOOKS  
(C) PROSE (D) LANGUAGE

133. अन्तिम पदटो पुर करिबब सर्वोत्कृष्ट विकल्पटो निर्णय करबक :

वृत्त : ज्यामिति :: कविता : ?

- (A) अध्याय (B) किताप  
(C) गद्य (D) भाषा

133. शेष पदटि पूरणेर जन्य सेरा विकल्पटि खूँजून :

वृत्त : ज्यामिति :: कविता : ?

- (A) अध्याय (B) वई  
(C) गद्य (D) भाषा

133. जोबथा सोदोबखौ आबुं खालामनो साबसिन फिनखौ सायख' :

बैखन : भुमसु :: खन्थाइ : ?

- (A) आयदा (B) बिजाब  
(C) रायथाइ (D) राव

133. अंतिम पद को भरने के लिए सर्वोत्तम विकल्प खोजिए :

वृत्त : ज्यामिति :: काव्य : ?

- (A) अध्याय (B) पुस्तकें  
(C) गद्य (D) भाषा

134. Identify the pair with the same relationship as Child : Vaccination.

- (A) Fever : Medicine (B) Food : Cooking  
(C) Plant : Pesticide (D) Animals : Food

134. শিশু : টিকাকৰণৰ সদৃশ সম্পৰ্কযুক্ত যোৰাটো চিনাক্ত কৰক।

- (A) জ্বৰ : ঔষধ (B) খাদ্য : বন্ধন  
(C) উদ্ভিদ : কীটনাশক (D) জন্তু : খাদ্য

134. শিশু : টিকাকৰণ-এৰ মতো একই সম্পৰ্কৰ জুটি সনাক্ত কৰক।

- (A) জ্বৰ : ঔষধ (B) খাদ্য : বান্ধা  
(C) উদ্ভিদ : কীটনাশক (D) প্ৰাণী : খাদ্য

134. गथ' : सिथाहोनाय बायदि सोमोन्दो गोनां जराखौ सिनायथि।

- (A) লোমজানায় : মূলি (B) আদাৰ : সনাথ  
(C) লাড়ফা : এম্ফৌ সিথায়গ্ৰা (D) জুনাদ : আদাৰ

134. बच्चा : टीकाकरण के समान संबंध वाले जोड़े की पहचान कीजिए।

- (A) बुखार : दवा (B) खाना : पकाना  
(C) पौधा : कीटनाशक (D) पशु : भोजन

135. Which of the following words would **not** fit correctly in the sentence?

The person died of a \_\_\_\_\_ hit on his head.

- (A) lethal (B) fatal  
(C) deadly (D) subtle

135. নিম্নলিখিত কোনটো শব্দ প্ৰদত্ত বাক্যটোত খাপ নাখায় ?

মৃত্যুত \_\_\_\_\_ আঘাতৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছে।

- (A) ধ্বংসাত্মক (B) প্ৰাণঘাতী  
(C) মাৰাত্মক (D) মৃদু

135. “ব্যক্তিটি মাথায় \_\_\_\_\_ আঘাত পেয়ে মারা যায়।” এই বাক্যটিতে নীচের কোন শব্দটি সঠিকভাবে খাপ খায় না ?

- (A) ধ্বংসাত্মক (B) প্ৰাণঘাতী  
(C) মাৰাত্মক (D) সূক্ষ্ম

135. गाहायनि बबे सोदोबा लोगोसे होनाय बाध्रायाव खाब जानाय नडा?

बे मानसिया खर'वाव \_\_\_\_\_ देजानानै थैदों।

- (A) गिख्रंथाव (lethal) (B) फोथैथाव (fatal)  
(C) गिलुबालु (deadly) (D) दुथां (subtle)

135. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द वाक्य में सही ढंग से फिट नहीं होगा?

सिर पर \_\_\_\_\_ प्रहार से व्यक्ति की मौत हो गयी।

- (A) घातक (B) जानलेवा  
(C) मारक (D) मंद

136. What would be the correct sequence of the following words as per the standard English dictionary?

1. Royal 2. Regal 3. Renal 4. Rebel

- (A) 1, 2, 3, 4 (B) 4, 3, 2, 1  
(C) 4, 2, 3, 1 (D) 4, 3, 1, 2

136. मानक इंग्रजी অভিধান অনুসৰি প্ৰদত্ত শব্দসমূহৰ শুদ্ধ শৃংখলাটো কি হ'ব ?

1. Royal 2. Regal 3. Renal 4. Rebel

- (A) 1, 2, 3, 4 (B) 4, 3, 2, 1  
(C) 4, 2, 3, 1 (D) 4, 3, 1, 2

136. একটি আদর্শ इंग्रैजि অভিधान অনুयायी प्रदत्त शब्दशुलोर सठिक क्रम की हबे ?

1. Royal 2. Regal 3. Renal 4. Rebel

- (A) 1, 2, 3, 4 (B) 4, 3, 2, 1  
(C) 4, 2, 3, 1 (D) 4, 3, 1, 2

136. गांसे मानगोनां इंग्रजी सोदोब बिहुडाव थानाय बायदियै गेबें फारिया मा जागोन?

1. Royal 2. Regal 3. Renal 4. Rebel

- (A) 1, 2, 3, 4 (B) 4, 3, 2, 1  
(C) 4, 2, 3, 1 (D) 4, 3, 1, 2

136. मानक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों का सही क्रम क्या होगा?

1. Royal 2. Regal 3. Renal 4. Rebel

- (A) 1, 2, 3, 4 (B) 4, 3, 2, 1  
(C) 4, 2, 3, 1 (D) 4, 3, 1, 2

137. Select the appropriate number to correctly continue the sequence 27, 30, 37, 50, ?, 98.

- (A) 69 (B) 73  
(C) 81 (D) 91

137. 27, 30, 37, 50, ?, 98 শৃংখলাটো শুদ্ধকৈ আগুৱাবৰ বাবে উপযুক্ত সংখ্যাটো নিৰ্বাচন কৰক।

- (A) 69 (B) 73  
(C) 81 (D) 91

137. 27, 30, 37, 50, ?, 98 ক্ৰমটি সঠিকভাবে চলিয়ে যেতে উপযুক্ত সংখ্যাটি নিৰ্বাচন কৰুন।

- (A) 69 (B) 73  
(C) 81 (D) 91

137. फारिख्रौ गेबेडै आवगायलांहोनो आरजाथाव अनजिमाख्रौ सायख्र'।

27, 30, 37, 50, ?, 98

- (A) 69 (B) 73  
(C) 81 (D) 91

137. अनुक्रम को सही ढंग से जारी रखने के लिए उचित संख्या का चयन कीजिए।

27, 30, 37, 50, ?, 98

- (A) 69 (B) 73  
(C) 81 (D) 91

138. Pallavi claims to be taller than Jyoti, but Smita who is taller than Pallavi knows that Pallavi is wrong. Which of the following can be said about their height?

- (A) Pallavi is definitely shorter than Jyoti  
(B) Pallavi and Jyoti are of the same height  
(C) Smita is the tallest of the three  
(D) Cannot be determined

138. পল্লবীয়ে দাবী কৰে যে তাই জ্যোতিতকৈ ওখ, কিন্তু পল্লবীতকৈ ওখ স্মিতাই জানে যে পল্লবীৰ উক্তি ভুল।  
তেওঁলোকৰ উচ্চতা সম্পৰ্কত নিম্নলিখিত কোনটো ক'ব পাৰি?

- (A) পল্লবী নিশ্চয়কৈ জ্যোতিতকৈ চাপৰ  
(B) পল্লবী আৰু জ্যোতিৰ উচ্চতা সমান  
(C) স্মিতা তিনিগৰাকীৰ সবাতোকৈ ওখ  
(D) নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি

138. পল্লবী নিজেৰে জ্যোতিৰ চেয়ে লম্বা বলে দাবি কৰে, কিন্তু স্মিতা, যে পল্লবীৰ চেয়ে লম্বা সে জানে যে পল্লবী ভুল। তাৰে উচ্চতা সম্পৰ্কে নীচৰ কোনটি বলা যায়?
- (A) পল্লবী অবশ্যই জ্যোতিৰ চেয়ে খাটো  
 (B) পল্লবী এবং জ্যোতি একই উচ্চতৰ  
 (C) স্মিতা তিনজনৰ মध्ये সৰ্বোচ্চ  
 (D) নিৰ্ধাৰণ কৰা যায় না
138. पल्लवीया गावखी ज्यतिनिखुइ जौसिन होन्नानै लायो, नाथाय पल्लवीनिखुइ जौसिन स्मिताया पल्लवीनि साननाया नंखाय होनना मिथिगौ। बिसोरनि जौथाइखी लानानै गाहायनि बबेया गेबें?
- (A) पल्लवीया ज्यतिनिखुइ हायसिनथार  
 (B) पल्लवी आरो ज्यतिया समान गोजौ  
 (C) स्मिताया साथामनि गेजेराव जौसिन  
 (D) बुनो हाया
138. पल्लवी, ज्योति से लंबी होने का दावा करती है, लेकिन स्मिता, जो पल्लवी से लंबी है, जानती है कि पल्लवी गलत है। उनकी ऊँचाई के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है?
- (A) पल्लवी निश्चित रूप से ज्योति से छोटी है  
 (B) पल्लवी और ज्योति की लंबाई समान है  
 (C) स्मिता तीनों में सबसे लंबी है  
 (D) तय नहीं किया जा सकता

139. At a college function, Romola pointed out to an actor and said, "He is my mother-in-law's only son's nephew". How is the actor's mother related to Romola?
- (A) Aunt (B) Daughter  
 (C) Niece (D) Sister-in-law
139. কলেজৰ এক অনুষ্ঠানত বমলাই এজন অভিনেতালৈ আঙুলিয়াই কয়, "তেওঁ মোৰ শাহু আইৰ একমাত্ৰ সন্তানৰ ভাগিন"। বমলাৰ সৈতে অভিনেতাজনৰ মাতৃৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব?
- (A) খুড়ী (B) জীয়ৰী  
 (C) ভাগিনী (D) ননদ
139. একটি কলেজের অনুষ্ঠানে, রমলা একজন অভিনেতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, "তিনি আমার শাহুড়ির একমাত্র ছেলের ভাগ্নে"। অভিনেতার মা রমলার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত?
- (A) কাকী (B) কন্যা  
 (C) ভাগ্নি (D) ননদ

139. गंसे फरायसालिमानि मोनसे हाबाफारियाव रमलाया फावखुंगुरनिर्धि दिन्धिहरनानै बुंबाय, “बियो आंनि बिखुनजोनि सासेल’ फिसालानि बियादै”। फावखुंगुरनि बिमाजों रमलाहा मा सोमोन्दो जायो?

- (A) बिमादै (B) फिसाजो  
(C) बियादै (D) बिबोनां

139. एक कॉलेज समारोह में, रोमोला ने एक अभिनेता की ओर इशारा करते हुए कहा, “वह मेरी सास के इकलौते बेटे का भांजा है”। अभिनेता की माँ का रोमोला से क्या संबंध है?

- (A) चाची (B) बेटा  
(C) भांजी (D) ननद

140. Find the best option to fill in the third term :

Gravity : Newton :: ? : Copernicus

- (A) Blood circulation (B) Heliocentric system  
(C) Rocket (D) Radioactivity

140. तृतीय पदटो पृषण कबिबलै उपयुक्त विकल्पटो निर्वाचन करक :

माध्याकर्षण : निউटन :: ? : कपारनिकास

- (A) रक्त सपणलन (B) सूर्यकेन्द्रिक निकाय  
(C) रकेट (D) तेजस्क्रियता

140. तृतीय पदटि पूरणेर् जन्य सेरा विकल्पटि खूजून :

माध्याकर्षण : निউटन :: ? : कपारनिकास

- (A) रक्त सपणलन (B) सूर्यकेन्द्रिक तन्त्र  
(C) रकेट (D) तेजस्क्रियता

140. थामथि सोदोबखौ आबुं खालामनो साबसिन फिनखौ सायख’ :

बोगथाबमा : न्युटन :: ? : कपारनिकस

- (A) थै खारसारदिनाय (B) हेलिअसेन्ट्रिक खान्थि  
(C) रकेट (D) रेडिअ सांग्रांथि

140. तृतीय पद को भरने के लिए सर्वोत्तम विकल्प खोजिए :

गुरुत्वाकर्षण : न्युटन :: ? : कॉपरनिकस

- (A) रक्त परिसंचरण (B) सूर्य-केन्द्रिक प्रणाली  
(C) रकेट (D) रेडियोधर्मिता





142. অমিল শব্দটো বিচাৰি উলিয়াওক।

- (A) ঘৰচিৰিকা (B) কাউৰী  
(C) বাদুলী (D) ময়ূৰ চৰাই

142. বিষমটি খুঁজে বের করুন।

- (A) চড়াই (B) কাক  
(C) বাদুড় (D) ময়ূৰ

142. गोरुब्रै सोदोब्रख्रौ नायगिरना दिहुन।

- (A) सख्रा (B) दाउख्रा  
(C) बादामालि (D) दाउराइ

142. अमिल को पहचानिए।

- (A) गौरैया (B) कौआ  
(C) चमगादड़ (D) मोर

143. Pointing to Sarat in a photograph, Malini said, “His brother’s father is the only son of my grandfather”. How is Malini related to Sarat?

- (A) Aunt (B) Grandmother  
(C) Mother (D) Sister

143. এখন ফটোগ্রাফত শৰতৰ ছবিখনলৈ আঙুলিয়াই মালিনীয়ে ক’লে,— “তেওঁৰ ভাতৃৰ পিতৃ মোৰ ককাদেউতাৰ একমাত্ৰ সন্তান”। মালিনী শৰতৰ সৈতে কোন সম্বন্ধৰে সম্পৰ্কিত ?

- (A) খুড়ী (B) আইতা  
(C) মাতৃ (D) ভগ্নী

143. একটি ছবিতে শৰৎ-এৰ দিকে ইঙ্গিত কৰে মালিনী বলেন, “তৰ ভাইয়েৰ পিতা আমাৰ পিতামহেৰ একমাত্ৰ ছেলে”। মালিনী কীভাবে শৰৎ-এৰ সঙ্ঘে সম্পৰ্কিত ?

- (A) কাকী (B) পিতামহী  
(C) মাতৃ (D) ভগ্নী

143. सावगारियाव सरतनिथि आसि थुनानै मालिनीया बुंबाय, “बिनि बिदानि बिफाया आंनि आबौनि सासेल’ फिसाला”। मालिनी आरो सरतनि सोमोन्दोआ मा?

- (A) बिमादै (B) बिबै  
(C) बिमा (D) बिब’/बिनानाव

143. एक तस्वीर में शरत की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, “उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं”। मालिनी, शरत से किस प्रकार संबंधित है?

- (A) चाची (B) दादी  
(C) माँ (D) बहन

144. If ROBOTICS is coded as OROBITSC, then PROJECTS would be coded as

- (A) ROPEJTSC (B) RPJOCEST  
(C) RPJOECST (D) ROJPCEST

144. যদি ROBOTICSক OROBITSC হিচাবে ক’ড কৰা হয়, তেন্তে PROJECTSৰ ক’ড হ’ব

- (A) ROPEJTSC (B) RPJOCEST  
(C) RPJOECST (D) ROJPCEST

144. যদি ROBOTICS-এৰ সংকেত OROBITSC হয়, তৰে PROJECTS-এৰ সংকেত হ’বে

- (A) ROPEJTSC (B) RPJOCEST  
(C) RPJOECST (D) ROJPCEST

144. जुदि ROBOTICS नि कदा OROBITSC, अब्ला PROJECTS नि कदा जागोन

- (A) ROPEJTSC (B) RPJOCEST  
(C) RPJOECST (D) ROJPCEST

144. यदि ROBOTICS को OROBITSC के रूप में कोडित किया जाता है, तो PROJECTS को जिस रूप से कोड किया जाएगा, वह है

- (A) ROPEJTSC (B) RPJOCEST  
(C) RPJOECST (D) ROJPCEST

145. In a zoo, the lion’s cage is towards the East of tiger’s cage. At the exact South of the lion’s cage, there is bear’s cage, which is towards the West of cheetah’s cage. In which direction is the tiger’s cage from the cheetah’s cage?

- (A) South-East (B) North-West  
(C) South-West (D) East

145. এটা চিৰিয়াখানাত সিংহৰ গঁৰালটো বাঘৰ গঁৰালৰ পূব ফালে আছে। সিংহৰ গঁৰালৰ ঠিক দক্ষিণ ফালে ভালুকৰ গঁৰাল আছে, যিটো চিতাবাঘৰ গঁৰালৰ পশ্চিম ফালে আছে। বাঘৰ গঁৰালটো চিতাবাঘৰ গঁৰালৰ পৰা কোনটো দিশত থাকিব ?

- (A) দক্ষিণ-পূব (B) উত্তৰ-পশ্চিম  
(C) দক্ষিণ-পশ্চিম (D) পূব

145. একটি চিড়িয়াখানায় সিংহের খাঁচা বাঘের খাঁচার পূর্ব দিকে। সিংহের খাঁচার ঠিক দক্ষিণে রয়েছে ভাল্লুকের খাঁচা, যা চিতার খাঁচার পশ্চিম দিকে। চিতার খাঁচা থেকে বাঘের খাঁচা কোন্ দিকে ?
- (A) দক্ষিণ-পূর্ব (B) উত্তর-পশ্চিম  
(C) দক্ষিণ-পশ্চিম (D) পূর্ব
145. मोनसे जुनारसालियाव सिंह'नि फानजारिया मोसानि फानजारिनि सानजाहा। सिंह'नि फानजारिनि खोलाहार्थि मुफुरनि फानजारि जाय चितानि फानजारिनि सोनाबर्थि। मोसानि फानजारिया चितानि फानजारिनि बबेर्थि थाखो?
- (A) खोला-सानजार्थि (B) सा-सोनाबर्थि  
(C) खोला-सोनाबर्थि (D) सानजार्थि
145. एक चिड़ियाघर में शेर का पिंजरा, बाघ के पिंजरे के पूर्व की ओर है। शेर के पिंजरे के ठीक दक्षिण में भालू का पिंजरा है, जो चीता के पिंजरे से पश्चिम की ओर है। चीता के पिंजरे से बाघ का पिंजरा किस दिशा में है?
- (A) दक्षिण-पूर्व (B) उत्तर-पश्चिम  
(C) दक्षिण-पश्चिम (D) पूर्व
- 
146. At what speed should a car travel on a highway to reach a destination 12 km away in 15 minutes?
- (A) 64 kmph (B) 84 kmph  
(C) 48 kmph (D) 36 kmph
146. राजपथत 12 कि. मि. दूरतुर गन्तव्य स्थान 15 मिनिटत गै पावलै एखन मटबगाड़ीये किमान वेगत यात्रा कबिब लागिब ?
- (A) 64 कि. मि. प्रति घन्टा (B) 84 कि. मि. प्रति घन्टा  
(C) 48 कि. मि. प्रति घन्टा (D) 36 कि. मि. प्रति घन्टा
146. একটি गाড়ि राजपथे कत गतिते छूटले 15 मिनिटे 12 किलोमिटर दूरेर गन्तव्ये पौँछाबे ?
- (A) 64 कि. मि. प्रति घन्टा (B) 84 कि. मि. प्रति घन्टा  
(C) 48 कि. मि. प्रति घन्टा (D) 36 कि. मि. प्रति घन्टा
146. मोनसे राजालामायाव गंसे गारिया बेसे खारथिजौं खारबोला 15 मिनिटाव 12 कि० मि० गोजान सहैगोन?
- (A) घण्टायाव 64 कि० मि० (B) घण्टायाव 84 कि० मि०  
(C) घण्टायाव 48 कि० मि० (D) घण्टायाव 36 कि० मि०
146. 15 मिनट में 12 किलोमीटर दूर किसी गंतव्य तक पहुँचने के लिए एक कार को राजमार्ग पर किस रफ्तार से चलना चाहिए?
- (A) 64 कि० मी० प्रति घंटा (B) 84 कि० मी० प्रति घंटा  
(C) 48 कि० मी० प्रति घंटा (D) 36 कि० मी० प्रति घंटा
-

147. Which word would be the last in a standard English dictionary?

- (A) ADVERSE (B) ADVENT  
(C) ADVENTURE (D) ADVERTISE

147. এটা মানক ইংৰাজী অভিধানত কোনটো শব্দ শেষত থাকিব ?

- (A) ADVERSE (B) ADVENT  
(C) ADVENTURE (D) ADVERTISE

147. আদৰ্শ ইংৰেজি অভিধানে কোন শব্দটি শেষে থাকবে ?

- (A) ADVERSE (B) ADVENT  
(C) ADVENTURE (D) ADVERTISE

147. मानगोनां इंग्रजी सोदोब बिहुडाव बबे सोदोबा उनसिन जागोन?

- (A) ADVERSE (B) ADVENT  
(C) ADVENTURE (D) ADVERTISE

147. मानक अंग्रेजी शब्दकोश में कौन-सा शब्द अंतिम होगा?

- (A) ADVERSE (B) ADVENT  
(C) ADVENTURE (D) ADVERTISE

148. Identify the correctly spelt word.

- (A) Moderator (B) Moredator  
(C) Modarator (D) Moderetor

148. শুদ্ধ বানানযুক্ত শব্দটো চিনাক্ত কৰক।

- (A) Moderator (B) Moredator  
(C) Modarator (D) Moderetor

148. সঠিক বানানের শব্দটি শনাক্ত করুন।

- (A) Moderator (B) Moredator  
(C) Modarator (D) Moderetor

148. गोरान्थि गैयै सोदोबखौ सिनायथि।

- (A) Moderator (B) Moredator  
(C) Modarator (D) Moderetor

148. सही वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए।

(A) Moderator

(B) Moredator

(C) Modarator

(D) Moderetor

---

149. Which of the following words **cannot** be made using the letters of MENDICANT?

(A) MEDICAL

(B) MEDIAN

(C) DETAIN

(D) ANCIENT

149. MENDICANTৰ আখৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি নিম্নলিখিত কোনটো শব্দ গঠন কৰিব নোৱাৰি ?

(A) MEDICAL

(B) MEDIAN

(C) DETAIN

(D) ANCIENT

149. MENDICANT-এৰ অক্ষৰগুলি ব্যবহার করে नीचेर कोन् शब्दটি गठन करा याय ना ?

(A) MEDICAL

(B) MEDIAN

(C) DETAIN

(D) ANCIENT

149. MENDICANT नि हांखोफोरखौ बाहायनानै गाहायनि बबे सोदोबखौ दानो हाया?

(A) MEDICAL

(B) MEDIAN

(C) DETAIN

(D) ANCIENT

149. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द MENDICANT के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है?

(A) MEDICAL

(B) MEDIAN

(C) DETAIN

(D) ANCIENT

---

150. At the Youth Parliament, certain number of country representatives sit in a linear row and all are facing the audience. Only ten persons sit to the left of Estonia. Fiji sits eighth to the left of Estonia. Angola sits fourth to the right of Bahrain. Canada sits to the immediate left of Denmark, and Denmark is the third from the extreme right end of the row. The number of countries between Estonia and Denmark is same as Bahrain and Estonia. Only six countries sit between Angola and Canada. In total, how many countries are seated at the Youth Parliament?

(A) 19

(B) 21

(C) 32

(D) 17

150. এটা যুৱ সংসদত কেইখনমান দেশৰ প্ৰতিনিধি দৰ্শকলৈ মুখ কৰি একেটা শাৰীত বহিছে। এষ্টোনিয়াৰ বাওঁফালে কেৱল দহগৰাকী ব্যক্তি বহে। এষ্টোনিয়াৰ বাওঁফালে অষ্টম স্থানত ফিজি বহিছে। বাহৰেইনৰ পৰা সোঁফালে চতুৰ্থ স্থানত এংগোলা বহিছে। ডেনমাৰ্কৰ ঠিক বাওঁফালে বহি আছে কানাডা, আৰু ডেনমাৰ্ক শাৰীটোৰ একেবাৰে সোঁফালৰ মূৰৰ পৰা তৃতীয় স্থানত আছে। এষ্টোনিয়া আৰু ডেনমাৰ্কৰ মাজৰ দেশৰ সংখ্যা বাহৰেইন আৰু এষ্টোনিয়াৰ মাজৰ দেশৰ সংখ্যাৰ সৈতে সমান। এংগোলা আৰু কানাডাৰ মাজত মাত্ৰ ছখন দেশহে বহি আছে। যুৱ সংসদখনত মুঠতে কিমানখন দেশৰ প্ৰতিনিধি বহি আছে?

- (A) 19 (B) 21  
(C) 32 (D) 17

150. যুৱ সংসদে, নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক দেশৰ প্ৰতিনিধিৰা এক সারিতে বসেছে এবং সকলেই দৰ্শকদেৱ মুখোমুখি। মাত্ৰ দশজন এষ্টোনিয়াৰ বাম দিকে বসে আছে। ফিজি, এষ্টোনিয়াৰ বামে অষ্টম স্থানে বসেছে। অ্যাঙ্গোলা, বাহৰেইনৰ ডানদিকে চতুৰ্থ স্থানে বসেছে। কানাডা, ডেনমাৰ্কৰ ঠিক বামপাশে বসেছে এবং ডেনমাৰ্ক সারিৰ চৰম ডান প্ৰান্ত থেকে তৃতীয়। এষ্টোনিয়া এবং ডেনমাৰ্কৰ মध्ये দেশৰ সংখ্যা বাহৰেইন এবং এষ্টোনিয়াৰ সমান। অ্যাঙ্গোলা এবং কানাডাৰ মধ্যে মাত্ৰ ছয়টি দেশ বসেছে। যুৱ সংসদে মোট কটি দেশ বসে রয়েছে?

- (A) 19 (B) 21  
(C) 32 (D) 17

150. मोनसे लाइमोन संसदाव माखासे हादरनि थान्दैफोरा नायग्राफोरनिधि मोखां जानानै थोंगोर फारियाव जिरायदों। एस्त'नियानि आगसिथि साजिल' मानसिफोर जिरायदों। फिजिया एस्त'नियानि आगसिथिनिफ्राय दाइनथियाव। अंग'लाया बाहरेइनि आगदार्थिनिफ्राय त्रैथियाव जिरायदों। कानाडाया डेनमार्कनि आगसिथि नांजाबना जदों डेनमार्का सारिनि आगदार्थिनिफ्राय थामथि मासियाव दं। एस्त'निया आरो डेनमार्कनि गेजेराव जेसेबां हादर दं, बाहरेइन आरो एस्त'नियानि गेजेरावबो एसेबाडानो। अंग'ला आरो कानाडानि गेजेराव गंदल' हादरफोरा जिरायदों। गासै गंबेसे हादरनि थान्दैफोरा बे लाइमोन संसदाव जिरायनानै दं?

- (A) 19 (B) 21  
(C) 32 (D) 17

150. युवा संसद में कुछ निश्चित संख्या में देशों के प्रतिनिधि एक सीधी पंक्ति में बैठते हैं और सभी दर्शकों की ओर मुंह करके बैठे होते हैं। एस्टोनिया की बाईं ओर केवल दस व्यक्ति बैठे हैं। फिजी, एस्टोनिया की बाईं ओर आठवें स्थान पर है। अंगोला, बहरीन के दाएँ से चौथे स्थान पर है। कनाडा, डेनमार्क के ठीक बाईं ओर बैठा है, और डेनमार्क पंक्ति के अंतिम दाएँ छोर से तीसरे स्थान पर है। एस्टोनिया और डेनमार्क के बीच देशों की संख्या बहरीन और एस्टोनिया के समान है। अंगोला और कनाडा के बीच केवल छह देश बैठते हैं। कुल मिलाकर कितने देश युवा संसद में बैठते हैं?

- (A) 19 (B) 21  
(C) 32 (D) 17

SPACE FOR ROUGH WORK

AssamNew.Com

SPACE FOR ROUGH WORK

AssamNew.Com

\*\*\*